

Date: August 23, 2025

To,

BSE Limited

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G- Block,
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai- 400001 Maharashtra

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai - 400051, Maharashtra

BSE Code: 520051 NSE Code: JAMNAAUTO

<u>Subject-Notice for transfer of equity shares and dividend to Investor Education and Protection Fund (IEPF)</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to the requirements of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of newspaper advertisements published in The Financial Express- English (Delhi and Chandigarh Edition) and Jansatta- Hindi (Delhi and Chandigarh Edition) regarding the unclaimed dividend and equity shares liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund Demat Account for the FY 2018-19 (Interim Dividend).

Kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Jamna Auto Industries Limited

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

Encl: As above

Corp Off: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes, Sector-27D, NH2, Faridabad-121003(HR.) Tel. 0129-4006885 Regd Off: Jai Spring Road, Industrial Area, Yamuna Nagar (Haryana)-135001, India Website: www.jaispring.com | CIN: L35911HR1965PLC004485 | Email Id: investor.relations@jaispring.com

Website: www.jaispring.com | CIN: L35911HR1965PLC004485 | Email Id: investor.relations@jaispring.com YAMUNA NAGAR | MALANPUR | CHENNAI | JAMSHEDPUR | PANTNAGAR | HOSUR | PUNE

FINANCIAL EXPRESS

PUBLIC NOTICE

Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act. 2008. Section 13 (3) AND In the matter of ARTHVISION GLOBAL CONSULTING LLP having its registered office at UG-8, A-212C, Tirupati Plaza, Street No-1,SHAKARPUR, EAST DELHI, DELHI-110092, INDIA, Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Delhi" to the state of "Uttar affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her nterest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies Delhi, within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of ARTHVISION GLOBAL CONSULTING LLP Nikita Aggarwal (Designated Partner) Din:10901588 Add: F-22B. Street No-10, Laxmi Nagar, Delhi-92

Form no INC-26 [[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

Advertisement to be published in the

newspaper for change of registered office

Place : Delhi; Date : 23.08.2025

of the company from one state to another Before the Central Government The Regional Director, Northern Region, New Delhi the matter of sub-section (4) of section 13 Companies Act, 2013 and clause (a) of subrule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Evolve Bits India Private Limited having its Registered Office at A-169, SECTOR 40, GAUTAM BUDDHA NAGAR, NOIDA, UTTAR PRADESH, INDIA, 201301.

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General meeting held on 06th August, 2025 to enable the Company to change its Registered office from "The State of Uttar Pradesh" to "The State of Karnataka". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, New Delhi, Delhi at the address B-2 Wing, 2nd New Delhi - 110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered

Registered office: A-169, SECTOR 40 GAUTAM BUDDHA NAGAR, NOIDA, UTTAR PRADESH, INDIA, 201301 For and on behalf of Evolve Bits India Pvt Ltd

office at the address mentioned below:

PRADIP KUMAR BANSAL (Director) DIN - 01393476 APURV BANSAL Date: 23.08.2025 (Director) DIN - 06526983 Place: Uttar Pradesh

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of

sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 that "M/s 3RK GLOBAL" a Partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a Company limited by shares, in the name of TRI RK **GLOBAL PRIVATE LIMITED** 2. The principal objects of the company

are as follows: To acquire the entire running business of

partnership firm 'M/s 3RK GLOBAL' as a going concern by converting the said firm M/s 3RK GLOBAL into a private limited company TRI RK GLOBAL PRIVATE LIMITED Under section 366 of Companies Act, 2013. To provide strategic and business

management consultancy services, including advisory on business operations, growth strategies, and organizational efficiency. To engage in wholesale trading of a vari-

ety of goods without any specialization, including distribution and bulk supply to retailers and other businesses To carry out the business of selling spare

parts, components, and accessories for motor vehicles including cars, trucks, and other automotive equipment.

To engage in trading, servicing, and repairing of motorcycles, scooters, and similar two-wheelers, along with sale of

their related components and acces-A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed

company may be inspected at the registered office at 31B, 3rd Floor, Khasra No. 174, Mohammadpur, Munirka, New Delhi-110066. Notice is hereby given that any person

objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC). Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within Twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the Company at its registered office address mentioned above.

Rajneesh Kochhar (Partner Date: 23.08.2025 | Place: New Delhi

For and on behalf of M/s 3RK GLOBAL

KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED (formerly known as Pankaj Plyush Trade & Investment Ltd)

Registered Office: DPT 612, F-79 & 80, DLF Prime Towers, Okhla Industrial Estate, South Delhi, Delhi, 110020 Corp Office: Office No.618, Crystal Paradiise, Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai 400053 Email Id: infopptinvestment@gmail.com; Website: www.kairosoft.ai

CIN: L22209DL1982PLC256291 NOTICE OF THE FORTY-THIRD (43rd) ANNUAL GENERAL

MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that The Forty-Third (43rd) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kairosoft Al Solutions Limited (formerly known as Pankaj Piyush Trade & Investment Ltd) will be held on Monday, 15th September, 2025 at 12.00 Noon IST through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Conferencing (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice dated 20th August, 2025. In compliance with the MCA and SEBI Circulars, Electronic copies of the

Notice of the AGM and Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-2025 have been sent to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. These documents are also available on the website of the Company i.e. at www.kairosoft.ai. website of stock exchange i.e. BSE at www.bseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at, www.evoting.nsdl.com The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on Friday, 22nd August, 2025. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act. The remote e-voting period commences on Friday, 12th September

2025 at 9.00 A.M. and ends on Sunday, 14th September, 2025 at 5.00 P.M. During this period, members of the Company holding shares either n physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Monday, 8th September, 2025 may cast their vote by remote e-voting on the business specified in the Notice of the AGM dated 20th August, 2025. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the soft copy of Notice and Annual Report as of the cut-off date i.e. Friday, 15th August, 2025 may follow the same procedure for remote e-voting as given in the Notice of AGM. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently.

Members who are participating in the AGM through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Conferencing (OAVM) on 15th September, 2025 can cast their vote during the AGM electronically on the businesses specified in the notice of AGM through electronic voting system (E- Voting) of NSDL However, only those Members, who will be present in the AGM through VC facility and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E Voting system in the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at evoting@nsdl.co.in Book Closure: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 9th day of September, 2025 to Wednesday, the 15th day of September, 2025 (both days inclusive) By Order Of The Board,

For Kairosoft Al Solutions Ltd. (formerly known as Pankaj Piyush Trade & Investment Ltd)

Naina Soni Company Secretary & Compliance Officer M.No. A76572 Date: 22.08.2025

AMAR VANIJYA LIMITED CIN: L74900DL1985PLC020118

: 105, Southex Plaza-II Leela Ram Market, South Ext-II New Delhi-110049 TEL: (011)41042727; EMAIL: amar.vanijya@rediffmail.com WEBSITE: www.amarvanijya.com

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of Amar Vanijya Limited will be held on Monday, 15th day of September, 2025 at the Registered Office of the Company at 105, Southex Plaza-II Leela Ram Market, South Ext-II New Delhi-110049 at 2:00 P.M. to transact the business as set forth in the Notice of the meeting dated 8th August, 2025

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means remote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice.

he remote e-voting period commences at 9:00 A.M. on 12th September. 2025 and ends at 5:00 P.M. on 14th September, 2025. Remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time. A member voting rights shall be in proportion to their share of the

paid-up equity share capital of the Company as on 5th September, 2025 (Cut-off date). A Person whose name is recorded in the register of member of the Company or in the register of beneficial owner maintained by the

depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in AGM The person who have acquired shares and become members of the

Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cutoff date i.e., 05.09.2025, may obtain user ID and password for remote e-voting by sending request at amar.vanijya@rediffmail.com The facility for voting, either by polling or ballot paper shall also be made available at the AGM and members who have not cast their votes by

remote e-voting shall be able to exercise their right to vote in AGM. A member may participate in AGM even after exercising his right to vote through e-voting but shall not be allowed to vote again in AGM. The Notice of the Annual General Meeting, along with the procedure for e-voting, is displayed on the Company's website www.amarvanijya.com

and on the website of the agency, www.evoting.nsdl.com. For any queries / grievances related to e-voting, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nadi.com or contact NSDL at the following toil-free no.:

fou may also contact to Mr. Ramawatar Lohia, Director, Amar Vanijya Limited., 105. Southex Plaza-II Leela Ram Market, South Ext-II New Delhi-10049, E-mail: amar vanijya@rediffmail.com, Tel: +(011)41042727. Notice in terms of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) egulations, 2015, is hereby given that the Register of Members and

the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 6th September, 2025 to Monday, 15th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 34th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, 15th September, 2025. By order of the Board of Directors

For Amar Vanijya Limited Place : Delhi Ramawatar Lohia Dated: 21.08.2025

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED CIN: L27101HP1984PLC005862

Registered office: -16 - 18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan Himachal Pradesh - 173213 Corporate Office: 4th Floor, Space- 408, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019, Ph: 011-43071031/61 Website:- www.shivalikbimetals.com , Email: investor@shivalikbimetals.com

NOTICE OF THE 41⁵⁷ ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 41" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 16" day of September, 2025 at Hotel Namastasya, Bye Pass Road, Near New Bus Stand, Lawi Khurd, Solan, Himachal Pradesh 173212 at 10.30. AM. (IST) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 13" August, 2025.

In terms of the provisions of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions, the Notice setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at the AGM together with the Attendance Slip and Proxy Form along with the Annual Report for financial year 2024-25 on 22" day, August, 2025 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA. However, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report and Notice are available to those shareholder(s) whose email is not registered.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.shivalikbimetals.com, on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited at www.masserv.com. In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial

Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), each as amended from time to time, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote electronically, through e-voting services provided by NSDL from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), on all resolutions as set out in the Notice. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice. The Members of the Company are further informed as follows:

Date of Completion of dispatch of notice: 22rd August, 2025;

The remote e-voting shall commence on Saturday, September 13, 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 15, 2025 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 09, 2025 ("Cut-off date").

The Board of Director(s) at its meeting held on May 29, 2025, recommended payment of final dividend of Rs. 1.50/- per equity share of face value of Rs. 2/- each for the financial year ended March 31, 2025, subject to approval of member(s) at the AGM. The dividend, if approved by the members, will be paid to Members holding Equity shares of the company as on cut-off date (Tuesday, September 09, 2025).

Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again.

The members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on Tuesday, September 09, 2025, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries and/or grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 or send a request to at evoting@nsdl.co.in or can also contact with RTA Mas Services Limited, Mr. Shrawan Mangla, Manager, at investor@masserv.com phone: - 011-41320335.

Mr. Amit Saxena, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner. 10. The results on resolutions shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM and the resolutions will

be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of requisite number of votes in favour of the resolutions.

11. The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company at www.shivalikbimetals.com and on RTA's website at www.masserv.com and will also be communicated to BSE Limited and NSE Limited.

12. This is also a reminder to update KYC details pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 07, 2024, and to dematerialize physical securities. The circular issued by SEBI mandates all the listed companies to record PAN, Address with PIN code, Mobile Number, Bank Account details, Specimen Signature and choice of Nomination of security holders holding securities in physical mode. The security holders are requested to register their email id also to avail online services. This is applicable for all security holders holding securities in physical mode. The formats for choice of Nomination and Updation of KYC details via; Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 and relevant SEBI circulars are available on our website as per below mentioned link: https://www.shivalikbimetals.com/about-us.php?pageId=39

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company pursuant to Section 91 of the Act will remain close from Wednesday, September 10, 2025 to Tuesday, September 16, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES:

Further, in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, shareholders are hereby notified that a special window has been opened for the re-lodgement of transfer deeds. This facility is applicable exclusively to those transfer deeds originally lodged prior to April 1, 2019, which were subsequently rejected, returned, or left unprocessed due to deficiencies in documentation, procedural issues, or other reasons. This special window will remain available for a period of six months-from July 7, 2025, to January 6, 2026. For Shivalik Bimetal Controls Limited

Place: New Delhi Dated: 23.08.2025

(Aarti Sahni) Company Secretary M.No: A25690

INDIRA UNIVERSITY

Established under Maharashtra State Private Universities (Establishment and Regulation Act 2023) Mah. Act No. VIII of 2024

We Are Hiring Applications are invited for the posts of **Vice Chancellor**

Pro Vice Chancellor

Controller of Examinations (COE)

Chief Librarian

Registrar

Chief Finance and Accounts Officer (CFAO)

And Deans for Indira University Schools as stated below:

4. School of Commerce & Economics

2. School of Information Technology

Assistant Professors for all 5 schools.

1. School of Business (MBA & BBA)

5. School of Liberal Arts

3. School of Pharmacy

Applications are also invited for the posts of Professors, Associate Professors, and

Qualifications and experience shall be as per UGC norms and the Maharashtra State Private Universities Act, 2023.

Interested candidates may visit www.indirauniversity.edu.in/careers for detailed advertisements and apply online/email application with relevant documents within 15 days from the date of publication

on email: jobs@indirauniversity.edu.in

IU Headquarter, 'Tapasya', 85/5-A, New Pune - Mumbai Highway, Tathawade, Pune 411033 Tel. No: 020 66168183, E-mail: jobs@indirauniversity.edu.in

I/C Registrar Indira University, Pune epaper.financialexpress.com

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION DEPTARMENT, CIRCLE OFFICE

PNB HOUSE, YAMUNAPURAM, BULANADSHAHR Email Id: cobsrgad@pnb.co.in

PREMISES REQUIRED

Punjab National Bank requires suitable ready built and well-constructed hall type building for Branch Office Karanwas having Carpet Area (1200-1600) SQFT on lease /rental basis premises should be preferably on Ground Floor and if on first floor with lift facility at Karanwas Bulandshahr (preferably maximum 500 meters). Premises offered should have all clearance certificates from statutory authorities. Interested owners / registered Power of attorney Holders of such premises in the desired locality who are ready to lease out their readily available premises on long term lease basis preferably for 15 years or more may send their offers in the prescribed format available on Bank's Web Site www.pnbindia.in or the same may be obtained from the above address during office hours. The complete offer duly sealed & signed should reach the undersigned on or before 02.00 PM 08.09.2025 at the above address

No brokerage will be paid by the Bank. Bank reserves the right to accept or reject any or all offers at its sole discretion without assigning any reasons whatsoever.

Sd/-, Circle Head Date: 22.08.2025

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED

CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana Corporate Office: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes, Sector-27D, NH2, Faridabad-121003(HR.)

Tel. 0129-4006885; Website: www.jaispring.com. Email Id: investor.relations@jaispring.com

Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2018-19 (Interim) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Demat Account maintained by IEPF Authority Notice is hereby given that pursuant to Section 124(5) & (6) of the Companies Act, 2013

(Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer the dividend which remains unclaimed or unpaid for a period of seven vears, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government. The Company is also required to transfer all such shares in respect of which dividend(s

has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, to IEPF Demat Account. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF. Accordingly, the following is liable to be transferred to IEPF Account:

	Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company
8	Unclaimed Dividend FY 2018-19 (Interim)	December 13, 2025	On or before November 28, 202
	The individual nations have	already been cent to	the respective shareholders who

The individual notices have already been sent to the respective shareholders, whose dividend along with shares are liable to transferred to IEPF authority during the FY 2025-26 for taking appropriate actions. The Company has also uploaded details of shareholders whose shares and dividends are due for transfer to IEPF Authority on its website at https://www.jaispring.com If you have not claimed your dividend for the last seven consecutive years and the amount(s) are lying unpaid/unclaimed against your folio/demat account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents:

A formal letter duly signed by all the joint holders, if any;

(iv) KYC forms as applicable in accordance with the recent SEBI Circular. The

Investors Relations tab> Corporate Governance> KYC Updation. Please send the above documents to the Company or its Registrar & Share Transfer Agen (i.e. M/s. Skyline Financial Services Private Limited) at the address mentioned below:-

To Registrar & Share Transfer Agent To Company **Skyline Financial Services Private Limited** Jamna Auto Industries Limited Unit No. 408, 4th Floor, Tower B. D-153 A. First Floor, Okhla Industrial Area. Vatika Mindscapes, Mathura Road Phase-1, New Delhi-110020 Sector-27D, Faridabad-121003, Ph. No.: 011-40450193-97 Harvana Email: parveen@skylinerta.com; Contact No. 0129-4006885 grievances@skylinerta.com Email: investor.relations@jaispring.com | Contact Person: Mr. Parveen Sharma

dividend to the IEPF Account by the aforesaid due date without any further notice. It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said

IEPF Demat Account. Please note that the transfer of dividend and shares to the IEPF Account, shareholders may claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount and the shares by making online application to IEPF in the prescribed Form IEPF-5 available on the website of MCA V3 viz. www.mca.gov.in and sending a duly signed physical copy of the same to the

Place: Faridabad Date: August 22, 2025

YOUR PERFECT BANKING PARTNER LCRD / New Delhi Division, U.G.F., Federal Towers, 2/2, West Patel Nagar, New Delhi-110008 Ph No.011-40733980, 40733978 Email: ndllcrd@federalbank.co.in

NOTICE U/S 13(2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w

Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

Khan, S/o Ajaj Ahmad Khan @ Ajaj Ahamad Khan @ Ajaj A Khan, Saho Darbhanga, Bihar – 847201,

 Flat No. L1/416, 4th Floor, Krish City Bhiwari, IND Area Alwar, (2) Shri/Smt. Ismat Praween, W/o Faiyaj Ahamad Khan,

a. Saho, Darbhanga, Bihar - 847201,

Haryana - 122002,

c. Flat No. L1/416, 4th Floor, Krish City Bhiwari, IND Area Alwar, Rajasthan - 301019.

availed Federal Housing Loan (FHS) with number 15287300000813 of ₹ 6,00,000 /- (Rupees Six Lakh only) on 24-04-2018 from The Federal Bank Limited a company registered under the Companies Act 2013 having registered office at Aluva (hereinafter referred to as the bank) through its branch at Gurugram/ M G Road Branch to purchase a residential flat after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank.

Towards the security of the aforesaid credit facility availed from the Bank, both of you have created security interest in favour of the Bank by way of mortgage

admeasuring Super built up area about 485 Sg.Ft and built up area about 423 Sq.Ft and all other improvements thereon situated in Krish City - II Bhiwadi, Rajasthan, bounded on East by: Others Land, West by: Alwar By pass road, North by: Others Agricultural land and South by: Khasra No. 623 of Village Dhiriawas.

The aforesaid mortgaged security property is hereinafter referred to as 'the

secured assets. The undersigned being Authorized Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a that a total amount ₹ 5,51,937.14 (Rupees Five Lakh Fifty One Thousand Nine Hundred and Thirty Seven, paise Fourteen Only) is due from you jointly and severally as on 24-02-2025 under your Federal Housing Loan with number 15287300000813 maintained with Gurgaon /M G Road branch of the Bank. In view of the default in repayment. your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset on 22-02-2025, as per the guideline of RBI. You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @9.85% per annum in your Federal Housing Loan with monthly rests along with additional penal charges and costs from 25-02-2025 till the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realizing the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above-mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all costs, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets (security properties). This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies

available to the bank for recovering its dues.

on you but seems not received by you which necessitated this publication as per the SARFAESI Act.

NOVA IRON AND STEEL LIMITED

Registered Office: Village-Dagori, Tehsil-Belha, District-Bilaspur (Chhattisgarh)- 495224

Email: rai nisl2007@yahoo.com Website: www.novaironsteel.com

(CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285206, 07752-285217 Notice of 33rd Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday, 17th September 2025 at 01:00 P.M. through

Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM), in compliance with applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under and relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular to transact the Business(es) set out in the Notice of AGM. Notice of AGM along with Annual Report will be sent through electronic mode to those Members whose email address are registered with the

Company/Depositories/RTA by email and will also be available on Company's website i.e. www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. Notice of the meeting will be sent to the shareholders by 23.08.2025. In compliance with regulation 36(1) (b) the company has sent a letter to those Shareholders whose email are not registered with the Company/ Depositories/ RTA by post at their registered address containing the details to Notice of (AGM) and Annual Report for the FY 2024-25. The instruction for participating through VC/OAVM and the process of e-

oting including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses are provided in the AGM Notice available on Company website www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. Members who have not registered their email address are requested to send an email request to rai nisl2007@gmail.com or admin@skylinerta.com along with

scanned copy of request letter, self-attested PAN, share certificate and email address & mobile number to register their email address. Members holding shares on 11/09/2025 (cut-off date) are eligible to cast their vote electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through

remote e-voting provided by Central Depository Services (India) Limited

(CDSL) and business may be transacted through such voting. The remote e-voting shall commence at 10:00 A.M. on 14/09/2025 and end at 5:00 P.M. on 16/09/2025 and thereafter will be disabled by CDSL. For details relating to remote e-voting, refer to Notice of AGM. In case of query relating to E-voting refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and evoting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th

evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43 The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11/09/2025 to 17/09/2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM. For Nova Iron and Steel Limited

Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower

Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk

Place: New Delhi Dated: 23.08.2025

Dheeraj Kumar **Company Secretary**



EPACK Durable Limited

Ph. No.: 0120-4522467, Website: www.epackdurable.com

Email ID: info_ed@epack.in

NOTICE is hereby given that the 6th (Sixth) Annual General Meeting ("**AGM**")

Regd. Office: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.-201306

NOTICE OF THE 6th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

of the members of EPACK Durable Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 16, 2025 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), to transact the business(es) as set out in the Notice of the 6th AGM issued in compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, read with the circular's issued in this regard and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 and other applicable Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Collectively referred to as "Circulars") permitted holding of 6th AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. In compliance with Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the 6th AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of the 6th AGM and

Annual Report which inter-alia comprises of Audited Financial Statements.

Auditors' Report and Board's Report etc. for the Financial Year 2024-25 has been electronically dispatched to all the members on Friday, August 22, **2025**, whose email ids are registered with the Company or National Securities Depository Limited ("NSDL")/Central Depository (India) Limited ("CDSL"), (collectively "Depositories") or, KFin Technologies Limited, Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"). Further, in compliance with Regulation 36 of SEBI Listing Regulations, a letter is being sent providing a weblink w.r.t. Notice and Annual Report, to those member(s) who have not registered their email addresses with the Company/Depositories /RTA.

The Annual Report along with the Notice of 6th AGM is also available on the Company's website at www.epackdurable.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the website of NSDL at https://evoting.nsdl.com/, the Members may write to Company Secretary of the Company at investors_ed@epack.in to avail a copy of the same.

rules made thereunder, the register of members and share transfer books of the Company will remain closed from Wednesday, September 10, 2025 to Tuesday, September 16, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Instructions to attend AGM and E-voting:

Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and

a) Members may attend the 6th AGM through VC at https://evoting.nsdl.com/ by login using the remote e-voting credentials and clicking 'Video Conference' thereafter. b) Members whose names appear in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositories as on the

Tuesday, September 09, 2025 ("Cut-Off Date"), shall only be entitled to

avail the remote e-voting facility or vote at the AGM. c) M/s Shirin Bhatt & Associates, Company Secretaries (FCS No. 8273, CP No. 9150) has been appointed as the scrutiniser for the remote e-voting process and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner

d) Remote e-voting shall commence on Saturday, September 13, 2025

(9.00 A.M. IST) till Monday, September 15, 2025 (5.00 P.M. IST).

General Meeting through remote e-voting can also attend the meeting

through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

Members who have not cast their votes through remote e-voting and are

Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. IST on September 15, 2025 and once the vote on resolutions is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become a member of the Company after dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as provided in the notice of the 6th AGM. The members who have cast their votes before the Annual

present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East,

Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address: evoting@nsdl.com or at telephone no.: 022- 48867000. Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and

Login type	Helpdesk details
ndividual Members nolding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free No.: 1800 22 55 33.
Individual Members holding securities in Demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free No.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000.

By order of the Board For **EPACK Durable Limited**

> Jyoti Verma Company Secretary & Compliance Officer FCS: 7210

New Delhi

Place: Noida

Date: August 22, 2025

("the Act") read with Rule 5 & 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority

Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof;

Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.; and forms/formats are available at the Company's website www.jaispring.com under

Shareholders are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares and

Company along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5.

For Jamna Auto Industries Ltd Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

FEDERAL BANK

CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

(1) Shri/Smt. Faiyaj Ahmad Khan @ Faiyaj Ahamad Khan @Faiyaz Ahmad

b. Flat No. 313, Regency Park EWS, DLF Phase IV, Gurgaon, Haryana - 122002,

b. Flat No. 313, Regency Park EWS, DLF Phase IV, Gurgaon,

The 1" of you as principal borrower and 2" as guarantor/co-obligant/ mortgagor

in respect of the following immovable property.

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY All the piece and parcel of the Flat bearing No. L1/416 on 4th Floor

This notice was issued on 26" day of February 2025 and the same was served

For The Federal Bank Ltd.. Dated this the 22[™] Day of August 2025 (Authorised Officer under SARFAESI Act)

25

Limited Liability Partnership Act, 2008 and rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009 In the matter of the Limited Liability Partnership Act; 2008, Section 13 (3) AND In the matter of ARTHVISION GLOBAL CONSULTING LLP having its registered office at UG-8, A-212C, Tirupati Plaza, Street No-1,SHAKARPUR, EAST DELHI, DELHI-110092, INDIA. Petitioner Notice is hereby given to the General Public that the LLP proposes to make a petition to Registrar of Companies, Delhi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of " Delhi" to the state of "Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her nterest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies Delhi, within 21 (twenty one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its egistered office at the address mentioned above.

ARTHVISION GLOBAL CONSULTING LLP Nikita Aggarwal (Designated Partner)

Add: F-22B, Street No-10, Laxmi Nagar, Delhi-92 Place : Delhi; Date : 23.08.2025

Form no INC-26 [[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Central Government The Regional

Director, Northern Region, New Delhi n the matter of sub-section (4) of section 13 Companies Act, 2013 and clause (a) of subrule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of Evolve Bits India Private Limited having its Registered Office at A-169, SECTOR 40, GAUTAM BUDDHA NAGAR, NOIDA, UTTAR PRADESH. INDIA, 201301,

Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra-Ordinary General meeting held on 06th August, 2025 to enable the Company to change its Registered office from "The State of Uttar Pradesh" to "The State of Karnataka", Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, New Delhi, Delhi at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within Fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered office at the address mentioned below:

GAUTAM BUDDHA NAGAR, NOIDA, UTTAR PRADESH, INDIA, 201301 For and on behalf of Evolve Bits India Pvt Ltd

PRADIP KUMAR BANSAL (Director) DIN - 01393476 APURV BANSAL (Director)

Date: 23.08.2025 Place: Uttar Pradesh DIN - 06526982

FORM NO. URC-2 Advertisement giving notice about registration

under Part I of Chapter XXI of the Act Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014] Notice is hereby given that in pursuance of

sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC) Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050 that "M/s 3RK GLOBAL" a Partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a Company limited by shares, in the name of TRI RK **GLOBAL PRIVATE LIMITED**

2. The principal objects of the company are as follows: To acquire the entire running business of

partnership firm 'M/s 3RK GLOBAL' as a going concern by converting the said firm M/s 3RK GLOBAL into a private limited company TRI RK GLOBAL PRIVATE LIMITED Under section 366 of Companies Act, 2013.

To provide strategic and business management consultancy services, including advisory on business operations, growth strategies, and organizational efficiency. To engage in wholesale trading of a vari-

ety of goods without any specialization, including distribution and bulk supply to retailers and other businesses.

To carry out the business of selling spare parts, components, and accessories for motor vehicles including cars, trucks, and

other automotive equipment. To engage in trading, servicing, and repairing of motorcycles, scooters, and

similar two-wheelers, along with sale of their related components and acces-A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed

company may be inspected at the registered office at 31B, 3rd Floor, Khasra No. 174, Mohammadpur, Munirka, New Delhi-110066. Notice is hereby given that any person

objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5. IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within Twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the Company at its registered office address mentioned above For and on behalf of M/s 3RK GLOBAL

Rajneesh Kochhar (Partner) Date: 23.08.2025 | Place: New Delhi

KAIROSOFT AI SOLUTIONS LIMITED

(formerly known as Pankaj Piyush Trade & Investment Ltd) Registered Office: DPT 612, F-79 & 80, DLF Prime Towers, Okhla Industrial Estate, South Delhi, Delhi, 110020 Corp Office: Office No.618, Crystal Paradiise, Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai 400053 Email ld: infopptinvestment@gmail.com; Website: www.kairosoft.ai

CIN: L22209DL1982PLC256291 NOTICE OF THE FORTY-THIRD (43rd) ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that The Forty-Third (43rd) Annual General Meeting (AGM) of the Members of Kairosoft Al Solutions Limited (formerly known as Panka) Plyush Trade & Investment Ltd) will be held on Monday, 15th September, 2025 at 12.00 Noon IST through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Conferencing (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice dated 20th August, 2025. In compliance with the MCA and SEBI Circulars, Electronic copies of the

Notice of the AGM and Integrated Annual Report of the Company for the Financial Year 2024-2025 have been sent to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. These documents are also available on the website of the Company i.e. at www.kairosoft.ai, website of stock exchange i.e. BSE at www.bseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at, www.evoting.nsdl.com The dispatch of Notice of the AGM brough emails has been completed on Friday, 22nd August, 2025. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Act.

The remote e-voting period commences on Friday, 12th September 2025 at 9.00 A.M. and ends on Sunday, 14th September, 2025 at 5.00 P.M. During this period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e., Monday, 8th September, 2025 may cast their vote by remote e-voting on the business specified in the Notice of the AGM dated 20th August, 2025. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the soft copy of Notice and Annual Report as of the cut-off date i.e. Friday, 15th August, 2025 may follow the same procedure for remote e-voting as given in the Notice of AGM. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the members, the member shall not be allowed to change it subsequently

Members who are participating in the AGM through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Conferencing (OAVM) on 15th September, 2025 can cast their vote during the AGM electronically on the businesses specified in the notice of AGM through electronic voting system (E- Voting) of NSDL However, only those Members, who will be present in the AGM through VC facility and have not casted their vote on the Resolutions through Remote E-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through E Voting system in the AGM.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager NSDL, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 at evoting@nsdl.co.in Book Closure: Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, the 9th day of September, 2025 to Wednesday, the 15th day of September, 2025 (both days inclusive) By Order Of The Board.

For Kairosoft Al Solutions Ltd. (formerly known as Pankaj Plyush Trade & Investment Ltd)

Naina Soni Place: New Delhi Company Secretary & Compliance Officer Date: 22.08.2025 M.No. A76572

AMAR VANIJYA LIMITED

CIN: L74900DL1985PLC020118 Regd. Off.: 105, Southex Plaza-II Leela Ram Market, South Ext-II New Delhi-110049 TEL: (011)41042727; EMAIL: amar.vanijya@rediffmail.com WEBSITE: www.amarvanijya.com

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of Amar Vanijya Limited will be held on Monday, 15th day of September, 2025 at the Registered Office of the Company at 105, Southex Plaza-II Leela Ram Market, South Ext-II New Delhi-110049 at 2:00 P.M. to transact the business as set forth in the Notice of the meeting dated

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as mended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the facility to cast their vote by electronic means mote e-voting) on all resolutions set forth in the Notice.

2025 and ends at 5:00 P.M. on 14th September, 2025. Remote e-voting shall not be allowed beyond said date and time A member voting rights shall be in proportion to their share of the

The remote e-voting period commences at 9:00 A.M. on 12th September,

paid-up equity share capital of the Company as on 5th September, 2025 A Person whose name is recorded in the register of member of the Company or in the register of beneficial owner maintained by the

depositories as on cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in AGM. The person who have acquired shares and become members of the ompany after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on cutoff date i.e., 05.09.2025, may obtain user ID and password for remote -voting by sending request at amar.vanijya@rediffmail.com

The facility for voting, either by polling or ballot paper shall also be made available at the AGM and members who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote in AGM. A member may participate in AGM even after exercising his right to vote hrough e-voting but shall not be allowed to vote again in AGM The Notice of the Annual General Meeting, along with the procedure for

e-voting, is displayed on the Company's website www.amarvaniiya.com and on the website of the agency, www.evoting.nsdl.com. For any queries / grievances related to e-voting, members may refer the requently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdi.com or contact NSDL at the following tolf-free no.:

fou may also contact to Mr. Ramawatar Lohia, Director, Amar Vanijya Limited., 105, Southex Plaza-II Leela Ram Market, South Ext-II New Delhi-110049, E-mail: amar.vanijya@rediffmail.com, Tel: +(011)41042727. **Book Closure**

Notice in terms of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, is hereby given that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, 6th September, 2025 to Monday, 15th September, 2025 (both days inclusive) for the purpose of 34th Annual General Meeting of the Company to be held on Monday, 15th September, 2025.

By order of the Board of Directors For Amar Vanijya Limited Ramawatar Lohia

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a esult of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED

Registered office: -16 - 18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan Himachal Pradesh – 173213 Corporate Office: 4" Floor, Space- 408, Eros Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi - 110019, Ph: 011-43071031/61 Website:- www.shivalikbimetals.com , Email: investor@shivalikbimetals.com

NOTICE OF THE 41⁵⁷ ANNUAL GENERAL MEETING. REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE INFORMATION

Notice is hereby given that the 41" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of SHIVALIK BIMETAL CONTROLS LIMITED ("the Company") is scheduled to be held on Tuesday, the 16" day of September, 2025 at Hotel Namastasya, Bye Pass Road, Near New Bus Stand, Lawi Khurd, Solan, Himachal Pradesh 173212 at 10.30. AM. (IST) to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 13th August, 2025.

In terms of the provisions of Section 101 and 136 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and any other applicable provisions, the Notice setting out the Ordinary and Special Businesses to be transacted at the AGM together with the Attendance Slip and Proxy Form along with the Annual Report for financial year 2024-25 on 22th day, August, 2025 through electronic mode to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA. However, a letter providing the web-link, including the exact path, where complete details of the Annual Report and Notice are available to those shareholder(s) whose email is not registered.

The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.shivalikbimetals.com, on the website of stock exchanges i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and also on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent, MAS Services Limited at www.masserv.com. In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Secretarial

Standard-2 on General Meetings and relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations. 2015 ("Listing Regulations"), each as amended from time to time, the Company is pleased to provide to its members, the facility to exercise their right to vote electronically, through e-voting services provided by NSDL from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"), on all resolutions as set out in the Notice. The manner of remote e-voting by members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice. The Members of the Company are further informed as follows:

Date of Completion of dispatch of notice; 22^{to} August, 2025;

The remote e-voting shall commence on Saturday, September 13, 2025 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 15, 2025 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter.

The voting rights of the Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday, September 09, 2025 ('Cut-off date').

The Board of Director(s) at its meeting held on May 29, 2025, recommended payment of final dividend of Rs. 1.50/- per equity share of face value of Rs. 2/- each for the financial year ended March 31, 2025, subject to approval of member(s) at the AGM. The dividend, if approved by the members, will be paid to Members holding Equity shares of the company as on cut-off date (Tuesday, September 09, 2025)

Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM. Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be allowed to cast their vote again.

The members whose names appear in the Register of Members / list of Beneficial Owners as on Tuesday, September 09, 2025, being the cut-off date, are entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. A person who is not a member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

In case a person has become the Member of the Company after the dispatch of this Notice but on or before the cut-off date may obtain the User ID and password in the manner as provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries and/or grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 or send a request to at evoting@nsdl.co.in or can also contact with RTA Mas Services Limited, Mr. Shrawan Mangla, Manager, at investor@masserv.com phone: - 011-41320335.

Mr. Amit Saxena, Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer, for conducting the e-voting as well as voting at the AGM in a fair and transparent manner.

10. The results on resolutions shall be declared not later than two working days from the conclusion of the AGM and the resolutions will

be deemed to be passed on the AGM date subject to receipt of requisite number of votes in favour of the resolutions . The results declared along with the Scrutinizer's Report will be available on the website of the Company at www.shivalikbimetals.com

and on RTA's website at www.masserv.com and will also be communicated to BSE Limited and NSE Limited. 2. This is also a reminder to update KYC details pursuant to SEBI Master Circular No. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/CIR/2024/37

dated May 07, 2024, and to dematerialize physical securities. The circular issued by SEBI mandates all the listed companies to record PAN, Address with PIN code, Mobile Number, Bank Account details, Specimen Signature and choice of Nomination of security holders holding securities in physical mode. The security holders are requested to register their email id also to avail online services. This is applicable for all security holders holding securities in physical mode. The formats for choice of Nomination and Updation of KYC details via; Forms ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14 and relevant SEBI circulars are available on our website as per below mentioned link: https://www.shivalikbimetals.com/about-us.php?pageId=39

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company pursuant to Section 91 of the Act will remain close from Wednesday, September 10, 2025 to Tuesday, September 16, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM. SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUEST OF PHYSICAL SHARES:

Further, in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, shareholders are hereby notified that a special window has been opened for the re-lodgement of transfer deeds. This facility is applicable exclusively to those transfer deeds originally lodged prior to April 1, 2019, which were subsequently rejected, returned, or left unprocessed due to deficiencies in documentation, procedural issues, or other reasons. This special window will remain available for a period of six months-from July 7, 2025, to January 6, 2026. For Shivalik Bimetal Controls Limited

Place: New Delhi

(Aarti Sahni) Company Secretary M.No: A25690

III INDIRA UNIVERSITY

Established under Maharashtra State Private Universities (Establishment and Regulation Act 2023) Mah. Act No. VIII of 2024

We Are Hiring Applications are invited for the posts of **Vice Chancellor**

Pro Vice Chancellor

Dated: 23.08.2025

Controller of Examinations (COE)

Registrar

Chief Librarian

Tel. No: 020 66168183, E-mail: jobs@indirauniversity.edu.in

Chief Finance and Accounts Officer (CFAO)

And Deans for Indira University Schools as stated below:

4. School of Commerce & Economics 5. School of Liberal Arts

2. School of Information Technology

1. School of Business (MBA & BBA)

3. School of Pharmacy

Applications are also invited for the posts of Professors, Associate Professors, and Assistant Professors for all 5 schools.

Qualifications and experience shall be as per UGC norms and the Maharashtra State Private Universities Act, 2023.

Interested candidates may visit www.indirauniversity.edu.in/careers for detailed advertisements and apply online/email application with relevant documents within 15 days from the date of publication on email: jobs@indirauniversity.edu.in IU Headquarter, 'Tapasya', 85/5-A, New Pune - Mumbai Highway, Tathawade, Pune 411033

I/C Registrar

Pune

Indira University

GENERAL SERVICES ADMINISTRATION DEPTARMENT, CIRCLE OFFICE PNB HOUSE, YAMUNAPURAM, BULANADSHAHR Email Id: cobsrgad@pnb.co.in

PREMISES REQUIRED

Punjab National Bank requires suitable ready built and well-constructed hall type building for Branch Office Karanwas having Carpet Area (1200-1600) SQFT on lease /rental basis premises should be preferably on Ground Floor and if on first floor with lift facility at Karanwas, Bulandshahr (preferably maximum 500 meters). Premises offered should have all clearance certificates from statutory authorities. Interested owners / registered Power of attorney Holders of such premises in the desired locality who are ready to lease out their readily available premises on long term lease basis preferably for 15 years or more may send their offers in the prescribed format available on Bank's Web Site www.pnbindia.in or the same may be obtained from the above address during office hours. The complete offer duly sealed & signed should reach the undersigned on or **before 02.00 PM 08.09.2025** at the above address. No brokerage will be paid by the Bank. Bank reserves the right to accept or reject any or all offers at its sole discretion without assigning any reasons whatsoever.

Date: 22.08.2025 Sd/-, Circle Head

JAMNA AUTO INDUSTRIES LIMITED CIN: L35911HR1965PLC004485

Regd. Office: Jai Springs Road, Industrial Area, Yamuna Nagar – 135001, Haryana Corporate Office: Unit No. 408,4th Floor, Tower-B, Vatika Mindscapes, Sector-27D, NH2, Faridabad-121003(HR.)

Tel. 0129-4006885; Website: www.jaispring.com. **Email Id:** investor.relations@iaispring.com

Transfer of Unpaid and Unclaimed dividend amount of FY 2018-19 (Interim) and Equity Shares of the Company, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) **Demat Account maintained by IEPF Authority**

Notice is hereby given that pursuant to Section 124(5) & (6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 5 & 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, ("The Rules"), the Company is mandatorily required to transfer the dividend which remains unclaimed or unpaid for a period of seven years, to Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by Central Government.

The Company is also required to transfer all such shares in respect of which dividend(s has not been encashed or claimed by the shareholders for seven consecutive years of more, to IEPF Demat Account. No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares once transferred to the IEPF. Accordingly, the following is liable to be transferred to IEPF Account:

Particulars of Transfer to IEPF	Due Date of Transfer to IEPF	Date of Claim to be forwarded to the Company	
Unclaimed Dividend FY 2018-19 (Interim)	December 13, 2025	On or before November 28, 2025	

The individual notices have already been sent to the respective shareholders, whose dividend along with shares are liable to transferred to IEPF authority during the FY 2025-26 for taking appropriate actions. The Company has also uploaded details of shareholders whose shares and dividends are due for transfer to IEPF Authority on its website at https://www.jaispring.com If you have not claimed your dividend for the last seven consecutive years and the amount(s) are lying unpaid/unclaimed against your folio/dema account, we request you to submit your claim for the above dividend by sending the following requisite documents:

A formal letter duly signed by all the joint holders, if any;

Self-Attested copy of PAN Card and Address Proof; (iii) Copy of Cancelled Cheque or Bank Statement, Passbook etc.; and

(iv) KYC forms as applicable in accordance with the recent SEBI Circular. The forms/formats are available at the Company's website www.jaispring.com under Investors Relations tab> Corporate Governance> KYC Updation.

Please send the above documents to the Company or its Registrar & Share Transfer Agen i.e. M/s. Skyline Financial Services Private Limited) at the address mentioned below:-

To Registrar & Share Transfer Agent To Company Skyline Financial Services Private Limited Jamna Auto Industries Limited Unit No. 408, 4th Floor, Tower B, D-153A, First Floor, Okhla Industrial Area, Vatika Mindscapes. Mathura Road Phase-1, New Delhi-110020 Sector-27D, Faridabad-121003, Ph. No.: 011-40450193-97 Haryana Email: parveen@skylinerta.com; Contact No. 0129-4006885 grievances@skylinerta.com Email: investor.relations@jaispring.com | Contact Person: Mr. Parveen Sharma

Shareholders are requested to note that if dividend not encashed or claimed within the stipulated time period, the Company will be statutorily required to transfer the shares and dividend to the IEPF Account by the aforesaid due date without any further notice.

It may also please be noted that all subsequent corporate benefits such as Bonus Shares Dividend etc. that may accrue in relation to the above shares will also be credited to the said IEPF Demat Account. Please note that the transfer of dividend and shares to the IEPF Account, shareholders may

claim from the IEPF Authority, both the unclaimed dividend amount and the shares by making online application to IEPF in the prescribed Form IEPF-5 available on the website of MCA V3 viz. www.mca.gov.in and sending a duly signed physical copy of the same to the Company along with requisite documents enumerated in the Form IEPF-5. For Jamna Auto Industries Ltd.

Place: Faridabad

Date: August 22, 2025

Praveen Lakhera Company Secretary & Head-Legal

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER LCRD / New Delhi Division, U.G.F., Federal Towers, 2/2, West Patel Nagar, New Delhi-110008 Ph No.011- 40733980, 40733978 Email: ndllcrd@federalbank.co.in CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

NOTICE U/S 13(2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/v Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

(1) Shri/Smt. Faiyaj Ahmad Khan @ Faiyaj Ahamad Khan @Faiyaz Ahmad

Khan, S/o Ajaj Ahmad Khan @ Ajaj Ahamad Khan @ Ajaj A Khan, a. Saho Darbhanga, Bihar – 847201,

b. Flat No. 313, Regency Park EWS, DLF Phase IV, Gurgaon, Haryana - 122002,

 Flat No. L1/416, 4" Floor, Krish City Bhiwari, IND Area Alwar, (2) Shri/Smt. Ismat Praween, W/o Faiyaj Ahamad Khan, Saho, Darbhanga, Bihar – 847201.

in respect of the following immovable property.

b. Flat No. 313, Regency Park EWS, DLF Phase IV, Gurgaon, Haryana - 122002,

c. Flat No. L1/416, 4th Floor, Krish City Bhiwari, IND Area Alwar, Rajasthan - 301019.

The 1" of you as principal borrower and 2" as guarantor/co-obligant/ mortgago availed Federal Housing Loan (FHS) with number 15287300000813 of ₹ 6.00.000 /- (Rupees Six Lakh only) on 24-04-2018 from The Federal Bank Limited a company registered under the Companies Act 2013 having registered office at Aluva (hereinafter referred to as the bank) through its branch at Gurugram/ M G Road Branch to purchase a residential flat after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank. Towards the security of the aforesaid credit facility availed from the Bank, both of you have created security interest in favour of the Bank by way of mortgage

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY All the piece and parcel of the Flat bearing No. L1/416 on 4" Floor

admeasuring Super built up area about 485 Sq.Ft and built up area about 423 Sq.Ft and all other improvements thereon situated in Krish City - II Bhiwadi, Rajasthan, bounded on East by: Others Land, West by: Alwar By pass road, North by: Others Agricultural land and South by: Khasra No. 623 of Village Dhiriawas.

The aforesaid mortgaged security property is hereinafter referred to as 'the

secured assets. The undersigned being Authorized Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a that a total amount ₹ 5,51,937.14 (Rupees Five Lakh Fifty One Thousand Nine Hundred and Thirty Seven, paise Fourteen Only) is due from you jointly and severally as on 24-02-2025 under your Federal Housing Loan with number 15287300000813 maintained with Gurgaon /M G Road branch of the Bank. In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset on 22-02-2025. as per the guideline of RBI. You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @9.85% per annum in your Federal Housing Loan with monthly rests along with additional penal charges and costs from 25-02-2025 till the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realizing the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above-mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all costs, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of the time available, to redeem the secured assets (security properties).

This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues.

on you but seems not received by you which necessitated this publication as per the SARFAESI Act. Dated this the 22[™] Day of August 2025

This notice was issued on 26" day of February 2025 and the same was served

For The Federal Bank Ltd.. **Place:** Noida (Authorised Officer under SARFAESI Act) **Date:** August 22, 2025

Company/Depositories/RTA by email and will also be available on Company's website i.e. www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. Notice of the meeting will be sent to the shareholders by 23.08.2025. In compliance with regulation 36(1) (b) the company has sent a letter to those Shareholders whose email are not registered with the Company/ Depositories/ RTA by post at their registered address containing the details to Notice of (AGM) and Annual Report for the FY 2024-25. The instruction for participating through VC/OAVM and the process of e-

to transact the Business(es) set out in the Notice of AGM.

NOVA IRON AND STEEL LIMITED Registered Office: Village-Dagori, Tehsil-Belha, District-Bilaspur (Chhattisgarh)- 495224 Email: rai nisl2007@yahoo.com Website: www.novaironsteel.com

(CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-285206, 07752-285217

Notice of 33rd Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the

Company will be held on Wednesday, 17th September 2025 at 01:00 P.M. through

Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM), in compliance

with applicable provisions of Companies Act, 2013 and rules made there under

and relevant Circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular

Notice of AGM along with Annual Report will be sent through electronic

mode to those Members whose email address are registered with the

oting including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their email addresses are provided in the AGM Notice available on Company website www.novaironsteel.com and Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. Members who have not registered their email address are requested to send an

email request to rai nisl2007@gmail.com or admin@skylinerta.com along with scanned copy of request letter, self-attested PAN, share certificate and email address & mobile number to register their email address. Members holding shares on 11/09/2025 (cut-off date) are eligible to cast their vote electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through

emote e-voting provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and business may be transacted through such voting. The remote e-voting shall commence at 10:00 A.M. on 14/09/2025 and end at 5:00 P.M. on 16/09/2025 and thereafter will be disabled by CDSL. For details relating to remote e-voting, refer to Notice of AGM. In case of query relating to E-voting refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and evoting user manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi,

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 11/09/2025 to 17/09/2025 (both days inclusive) for the

Place: New Delhi Dated: 23.08.2025

Dheeraj Kumar **Company Secretary**



EPACK Durable Limited

Regd. Office: 61-B, Udyog Vihar, Surajpur, Kasna Road, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar, U.P.-201306 Ph. No.: 0120-4522467, Website: www.epackdurable.com

Email ID: info_ed@epack.in

NOTICE OF THE 6th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 6th (Sixth) Annual General Meeting ("**AGM**") of the members of EPACK Durable Limited ("the Company") will be held on Tuesday, September 16, 2025 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"), to transact the business(es) as set out in the Notice of the 6th AGM issued in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, read with the circular's issued in this regard and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 and other applicable Circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Collectively referred to as "Circulars") permitted holding of 6th AGM through VC/OAVM, without physical presence of the members at a common venue. In compliance with Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the 6th AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice of the 6th AGM and

Annual Report which inter-alia comprises of Audited Financial Statements,

Auditors' Report and Board's Report etc. for the Financial Year 2024-25 has

been electronically dispatched to all the members on Friday, August 22, **2025**, whose email ids are registered with the Company or National Securities Depository Limited ("NSDL")/Central Depository (India) Limited ("CDSL"), (collectively "Depositories") or, KFin Technologies Limited, Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"). Further, in compliance with Regulation 36 of SEBI Listing Regulations, a letter is being sent providing a weblink w.r.t. Notice and Annual Report, to those member(s) who have not registered their email addresses with the Company/Depositories /RTA. The Annual Report along with the Notice of 6th AGM is also available on

the Company's website at www.epackdurable.com, websites of the Stock Exchanges, i.e., www.bseindia.com and www.nseindia.com, and on the website of NSDL at https://evoting.nsdl.com/, the Members may write to Company Secretary of the Company at investors_ed@epack.in to avail a copy of the same. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and

the Company will remain closed from Wednesday, September 10, 2025 to Tuesday, September 16, 2025 (both days inclusive) for the purpose of AGM. Instructions to attend AGM and E-voting: a) Members may attend the 6th AGM through VC at

rules made thereunder, the register of members and share transfer books of

and clicking 'Video Conference' thereafter. b) Members whose names appear in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the Tuesday, September 09, 2025 ("Cut-Off Date"), shall only be entitled to

avail the remote e-voting facility or vote at the AGM.

https://evoting.nsdl.com/ by login using the remote e-voting credentials

c) M/s Shirin Bhatt & Associates, Company Secretaries (FCS No. 8273, CP No. 9150) has been appointed as the scrutiniser for the remote e-voting process and e-voting at the AGM in a fair and transparent manner. d) Remote e-voting shall commence on Saturday, September 13, 2025 (9.00 A.M. IST) till Monday, September 15, 2025 (5.00 P.M. IST).

Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 P.M. IST on September

15, 2025 and once the vote on resolutions is cast by the member, the

member shall not be allowed to change it subsequently. In case a person has become a member of the Company after dispatch of AGM Notice but on or before the cut-off date, he/she may obtain the User ID and Password in the manner as provided in the notice of the 6th AGM. The members who have cast their votes before the Annual General Meeting through remote e-voting can also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. Members who have not cast their votes through remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM shall be eligible to vote through

e-voting at the AGM. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call at 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address:

evoting@nsdl.com or at telephone no.: 022- 48867000. Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and **NSDL**:

Helpdesk details Login type Individual Members | Members facing any technical issue in login can

holding securities in contact CDSL helpdesk by sending a request at Demat mode with CDSL helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free No.: 1800 22 55 33. Individual Members | Members facing any technical issue in login can

Demat mode with NSDL | evoting@nsdl.co.in or call at toll free No.: 022-4886 7000 and 022-2499 7000. g) For detailed process of casting votes refer the AGM Notice.

For **EPACK Durable Limited**

Company Secretary & Compliance Officer

FCS: 7210

holding securities in contact NSDL helpdesk by sending a request at

By order of the Board

Jyoti Verma

Chandigarh

epaper.financialexpress.com

Sr. Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk. evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43

purpose of AGM. For Nova Iron and Steel Limited





यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

माग सचना

(प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत। अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से बँच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस की विषय-वस्तु नीचे उद्धत की गई है:

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभृति हित

क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
1	1) हसीब मेन्स वियर 2) हबीब नसीब खान 3)मोहम्मद हसीब हबीब खान 4) कैसर हबीब खान कैन - यूजीपीएनएलएमएस0000070732	मांग सूचना की तिथिः 07 अगस्त 2025 सूचना राशिः रू. 44,50,790/- (केवल चौवालीस लाख पचास हजार सात सौ नब्बे रुपये) 04 अगस्त 2025 तक

सुरिक्षत परिसंपत्तियों का विवरण:- "आवासीय भूखंड संख्या 41, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फूट अर्थात 92.936 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 751 मिन का भाग, राम नगर, वार्ड ठाकुरगंज, तहसील एवं जिला लखनऊ में स्थित है। इसके चारों ओर निम्नलिखित क्षेत्र हैं: - पूर्व में: भूखंड संख्या 40, परिचम में: भूखंड संख्या 42, उत्तर में: 20 फीट चौड़ा मार्ग, दिक्षण में: सिमित का भूखंड।'

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भगतान इस प्रकाशन

की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि युग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा **यु ग्रो कैपिटल लिमिटेड** के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो युग्नो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसुलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। युग्नो कैपिटल **लिमिटेड** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और /या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेंड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा युग्रो कैपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय **यग्नो कैपिटल लिमिटेंड** को किसी अन्य कानन के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को युग्रो कैंपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका / निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः लखनऊ

यु ग्रो कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com

P R HOLDINGS LIMITED Regd. Office: R-489, GF-C, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060 Tel: 011-42475489 Website: www.prholding.in Email: prholding1983@gmail.com CIN: L27310DL1983PLC314402 **NOTICE**

Pursuant to Listing Agreement(s) with MSEI Ltd. & CSE. Notice/Intimation is given that Meeting(s of Audit Committee. Remuneration & Nomination Committee and Board of Directors is scheduled to be held on TUESDAY - 02.09.2025 at 12:30 & 01:00 & 01:30 P.M. respectively at its Regd. Office inter-alia to consider & approve NOTICE of 42ND ANNUAL GENERAL MEETING alongwith Notes, Directors Report, MGT-9, Secretarial Audit Report, Management Discussion & Analysi Report, Secretarial Compliance Report, PCS Certificate, Corporate Governance Report, Policies Committees, Book Closure Dates, AGM details, Audited Financial Statements with Audit Report of FY ended 31.03.2025, appointment of Director(s) & Statutory Auditors, List of Resolutions Correspondence with RTA, CDSL, NSDL, E-voting, Scrutinizer, Annual Report of FY 2024-25 Etc. Trading Window in equity shares will remain closed from 01.07.2025 to 05.09.2025 for all insiders and any other matter with the permission of Chair. (Kindly also refer OUTCOME/PROCEEDINGS of Board Meeting held on 01.08.2025)

New Delhi 20.08.2025 **SAKSHI GUPTA** WTD & CFO - DIN: 09773654 Members are requested to Update their Contact details, address, PAN, Email Id, etc for your Company's updates, announcements, correspondence, etc.

मनापुरम होम काङ्गेस लिमिटेड शुर्व मेल नवणुरन होन काङ्गेत प्रह्मेट लिमिटेड) MANAPPURAM HOME টার্বিভূল কার্যানাম: IV এবাবে ব্রিয়ালা, কর্মনু চারাং লিয়াই, কর্মমুলা রাজ্যা, সালারাক, বিষয়ুত্ত, ক্রিলা – ৪০০৪০০ ক্রমিলিত কার্যালাকা কর্মনুগর রাল কর্মনি রিলিটার, বৌধারী বলিজা, বুলিত পাব ১৪৫ বা ১৪৯, যু নিয়া, "কার্যালাকা বলিন স্কৃতিত", এইবা)—বুলার্যার, অমার্যালাকার্যালাকার্যালাকার मांग सचना

पीता कि मनापूरण तीम पाइनेंस विकिटेंड जिलाका चंत्रीकृत कार्यातक (V/4/20/पुराण) अवनुद्धक ((चया), मनापूरण द्वारण, तलपड, निवृत्त, करून द 660667 में जिला है तथा जिलाकी माध्यार भारत के विभिन्न अधानी पर विभाग है (इसके बाद "एनएएपऑएपऑईएन" हिटिता), क्यानी अधिनेतम. 1956 के तहत पंजीवृत एक कंपनी एवं वितीय तंपतियाँ के प्रतिमृतिकरण और पुनर्निमांत तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनिधन. 2002 (हमार्क बाद "अधिनियम" विदिश) की धारा 2 की जनपान (१) से बाब (एप) की प्रपत्नक (४) में वर्गित रूप में पात वितीय सरवान है तथा जिसे मारा सरकार, वितीय सेवा विभाग, कित संवातय, नई दिल्डी द्वारा दिनाय 18 दिसंबर, 2015 को जारी अधिस्थान संख्या एस. में 3666(हैं) के अंतर्गत अधिवृत्तित किया गया है. जो मुख्य रूप से आवाल इकाइयों के निर्माण औराया खरीद हेतु. ऋण मदान करने के व्यवस्था में सलग्न है और जैसाकि, नीवे तालिक के कीलम संख्य 2 में वर्षित ऋणधारकों / सह-ऋणधारकों ने एमएएकवेएकवाईएन सं जरण प्राप्त किया यह और वीताकि, एमएएकअंएकआईएन, सर्वेती अधिनेतम के तहत एक प्रतिकृत जागदाता होने के नाते तक उक्त अधिनियम की आज 18(2) को साथ परित प्रतिभूति हिंत (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के अंतर्गत प्रयत्त अधिकारों का प्रवास करते तर जना कारकरोजें / सह-ज्याकरोजें को सुबना जारी कर 62 दिनों की अपिर के बीतर सुबना में विलिक्षित रात्रि के मुगतन करने हेनु निरीत दिया था, किन्तु विकिन कारणों से उनमें से भूछ को जरू भूवना सर्व नहीं किया जा सका। बरा उपरांश संदर्भ में एवं नीवे उस्लेखित of the set the first more enforters on all firsteen the following

2	वदारकर्ता वह-वदारकर्ता का नाम तन शका	प्रतिपूर्त संपत्ति का विकास जिल्हा सिधे प्रतिपूर्ति कित निर्मित किया गया है।	प्रथमित विशि	नेजी गर्थ सूचन की तिथि और स्थाप गति
1	सुखदेई मीना, राजकुमार मीना, राजेंद्र कुमार मीना, NLAP0052031705 जयपुर	खरारा सं. 756, गांव खिरखिरी, पाम पंचावत महेल, पंचायत समिति टोडाम, एव. करोली में पृष्टा सं. 6915 वर प्लॉट, शेक्फल 277.77 वर्ग फुट, जो पाम पंचावत महेल के अधिकार क्षेत्र और उप-पंजीयक टोडामीम, राजस्थान की सीमाओं के मीतर है, पिन खंडल 321611 पूर्व-सोमंत्रवर और शिवचरण की कृषि भूमि, परिचय-माणि प्रसाद और राजेंड का बगीचा, दक्षिण-बासू लाल मीना की कृषि भूमि, चतर-साम्रा रास्ता।	08-06- 2025	09-08-2025 174 W. 962463/-
ž	रशीराम गुजर, सुमन गुजर, धर्मसिड गुजर, समधद गुजर/ NHL0820029885/ जयपुर	गांव मालपुर, प्राम पंचायत नवारी, पंचायत समिति विकास, वीता में पड़ा से 13, संकल्प स एक का प्लॉट संजयत 160,00 वर्ग गांत, जो प्राम पंचायत नंदानी के अधिकार सेच और एप-पंजीयक तिकास, एजारपान की चीनाओं के बीतर है, पिन कोडक 3035001 पूर्न-रंगायर गुजर की कृषि कृषि परिचम-साझा ताला, पश्चिम-मांश का घर उत्तर-स्वयं की सूनी कृषि।	08-08- 2025	09-08-2025 एवं '9, 744561/-

जतः, उपपुक्तः उपलब्कोत्सह-जारकको को सुबित किया जाता है कि ये इस सुकना के प्रकारत की तिथि से ६० विनों के बीतर सम्बंधित उपरक्तांत्वर ज्यानकर्ता सं नाम के रामक वर्णित कृत बकाय शांति का मुगतान करें। यदि सम्बंधित उपरक्तांत्रसा उपरक्तां द्वारा ब्यास के साथ कृत बकाया शांति का निर्धारित रामवावधि में मुगतान नहीं किया गया, तो एमरएचओएफआईएन अधिनियम की छारा (3/4) के आगीत अधिकरती का प्रयोग करते हुए, संपत्ति पर प्रतिसूति हिए के अवति की प्रक्रिया आलंद करेगा। अधिनियम तथा तसके आंतरित निर्मात के अनुसार अना गरीके से भी सुधना की संख के बदय उठाए जा रहे हैं दासका ही आपको यह भी सुविध किया जाता है कि घंदि सर्वविध चपति के प्रति समी बकाय राशियों का एनएएवओएफआईएन द्वारा बटन की गई लागा। शुल्क एवं वार्यी सहित सकेंसी अधिनिवम की धरा 13(8) में अनुसार सार्वजनिक नीतानी या निजी संधि के किये सुधना के प्रधारतन से धूर्व किसी भी समय में बुनदान कर दिया जाता है ती उक्त शंपति को विनोषित कराय जा सकता है। यह भी ध्यान रहे कि सामेंसी अधिनेवम की धारा 🖂 🖂 कं अलॉल, आपको बिक्टे, यहा अध्या किसी लच्च लीके से इतिपूत परिरुपति का

अंतरण पर्व अअवच व्यवस्थव करने से विभेत किया जाता है। दिनांक 23 अगस्त 2025, स्थान राजस्थान हस्ता - अधिकृत अधिकारी, मनान्यूरम होम काइनेंस ति



जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएनः L35911HR1965PLC004485

पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर-135001, हरियाणा कॉर्पोरेट कार्यालयः युनिट नं. 408, चौथी मंजिल, टावर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा),दुरभाष-0129-4006885; वेबसाइटः www.jaispring.com ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) डीमैट खाते में वित्तीय वर्ष 2018–19 (अंतिरम) की गैर भूगतेय और दावा न की गई लाभांश राशि और कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण।

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(5) और (6) के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (''नियम'') के नियम 5 और 6 के अनुसार, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए या भुगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (ऑईईपीएफ) में स्थानांतरित करना आवश्यक

कंपनी को ऐसे सभी शेयर भी आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करने होंगे, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भूगतान या दावा नहीं किया गया है। आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के बाद, दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। तदनुसार, निम्नलिखित को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है:

आईईपीएफ में स्थानांतरण का	आईईपीएफ में स्थानांतरण	आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि		
विवरण	की नियत तिथि			
दावारहित लाभांश वित्तीय वर्ष	13 दिसंबर, 2025	28 नवंबर 2025 को या उससे पहले		
2018—19 (अंतिरम)				
व्यक्तिगत नोटिस पडले ही उन संबंधित शेयरधारकों को भेजे जा चके हैं जिनके शेयर उचित				

कार्रवाई करने के लिए वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान आईईएफपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने उन शेयरधारकों का विवरण भी अपनी वेबसाइट https://www.jaispring.com पर अपलोड किए गए हैं जिनके शेयर और लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के लिए नियत है। यदि आपने पिछले सात लगातार वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और राशि आपके फोलियो / डीमैट खाते में गैर भूगतान 🖊 अदावाकृत पड़ी है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज

भेजकर उपरोक्त लाभांश के लिए अपना दावा प्रस्तृत करें: (प) सभी संयक्त धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र, यदि कोई हो

(पप) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी (पपप) रद्द किए गए चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रति

(पअ) सेबी के हालिया परिपत्र के अनुसार केवाईसी फॉर्म लागू है। फॉर्म/प्रारूप कंपनी की विबसाइट www.jaispring.com पर निवेशक संबंध टैबझ कॉरपोरेट गवर्नेंसझ केवाईसी अपडेट

कृपया उपरोक्त दस्तावेज कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (यानी मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को नीचे दिए गए पते पर भेजें: -

ı	कपना का	राजस्ट्रार आर शयर ट्रांसफर एजंट का
ı	जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
ı	चौथी मंजिल, टॉवर बी, वाटिका माइंडस्केप,	डी–153 ए, प्रथम तल,ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
ı	मथुरा रोड, सेक्टर—27डी,	फेज–1, नई दिल्ली–110020,फोन नंबरः
	फरीदाबाद—121003, हरियाणा	011—40450193—97
	संपर्क नंबर 0129-4006885	ईमेलः parveen@skylinerta.com
ı		grievances@skylinerta.com
ı	ईमेलः investor.relations@jaispring.com	संपर्क हेतु व्यक्तिः श्री परवीन शर्मा
1		

भीतर लाभांश का नकदीकरण या दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी को बिना किसी अन्य सुचना के उक्त नियत तारीख तक आईईपीएफ डीमैट खाते में शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक होगा।

शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि निर्धारित समय अवधि के

कृपया यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त शेयरों के संबंध में अर्जित सभी बाद के कॉर्पोरेट लाभ जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि भी उक्त आईईपीएफ डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ खाते में लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण के बाद, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों दोनों के लिए एमसीएवी3 की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन करके दावा कर सकता और फॉर्म आईईपीएफ-5 में इसकी विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति कंपनी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना।

> कृते जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता. / —

स्थानः फरीदाबाद प्रवीण लखेड़ा कंपनी सचिव और प्रमुख-कानूनी दिनांकः 22 अगस्त, 2025

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

(CIN: L99999DL1984PLC019052) **पंजीकृत कार्यालय:** 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट संख्या 2, सामुदायिक केंद्र,

रोड संख्या 44 के किनारे, पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034 वेबसाइट: www.agarwalduplex.net; ईमेल आईडी: agarwalduplex1984@gmail.com फोन: +91 11 47527700 फेक्स - +91 11 47527777 वार्षिक आम बैठक की सूचना

रतद द्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 41^व वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को पूर्वाह 11.30** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य रूश्य-श्रव्य माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक ५ मई, २०२०, सामान्य परिपत्र संख्या ०२/२०२२ दिनांक ५ मई, और सामान्य परिपत्र संख्या ११/२०२२ दिनांक २८ दिसंबर, २०२२ और परिपन्न संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और परिपन्न संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 के अनुपालन में और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अधिसूचना SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-Z/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति है, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसलिए, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्क्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है ताकि नोटिस में

418 वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की सचना शेयरधारकों को केवल तभी व्यक्तिगत रूप से ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी. जब उनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी/रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट के पास पंजीकत हो। एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपन्नों के अनुसार, एजीएम की सूचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। 41° वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.agarwalduplex.net/notices, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in और

www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते और केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं. से अनरोध है कि वे कंपनी को agarwalduplex1984@gmail.com पर या कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यटन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को beetalrta@gmail.com पर लिखकर अपना केवाईसी अपडेट करें, साथ ही कंपनी और आरटीए वेबसाइट पर उपलब्ध हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति भी भेजें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स

के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत/अपडेट करें। भौतिक रूप में पा अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अद्यतन न करने वाले सदस्यों के लिए एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सचना में दिया गया है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप श्री पुनीत मित्तल, महाप्रबंधक, बीटल फाइनेशियल एंड कंप्पूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से beetalrta@gmail.com टेलीफोन नंबर 011 29961281 पर या श्री राकेण दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 पर संपर्क कर सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 022 23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

इसके अलावा, सेंबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, सेबी ने केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुन: दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो खोलने का निर्णय लिया है, जो 01 अप्रैल, 2019 की समय सीम से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य कारणों से अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/उपस्थित नहीं हुए थे। यह अवधि 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए रहेगी। यदि कोई शेयरधारक हस्तांतरण विलेख पुनः दाखिल करना चाहता है, तो वह बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री पुनीत मित्तल से beetairta@gmail.com पर संपर्क कर सकता है। बोर्ड के आदेशानुसार

कृते अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड दिनांक: 23.08.2025 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

हस्ताक्षरित/

(रेणु मलिक

YES // BANK

स्थान: दिल्ली

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)

पंजीकृत और कॉपोरेंट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई-400055, वेबसाइट: www.yesbank.in, ई-मेल : communications@yesbank.in, सीआईएन : L65190MH2003PLC143249,

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना का प्रकाशन

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) को जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा ग्रहण किए गये मुलधन तथा ऋण सुविधा के ब्याज के पुनर्भगतान में चूक की है तथा जिनके ऋण खाते गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, को सूचना दी जाती है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पनर्निर्माण एवं प्रतिभत्ति हित अधिनियम. 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पर सचनाएं जारी की गयी थीं और उन्हें इस सार्वजनिक सचना

कर्जदारों, सह-कर्जदारों, बंधककर्ताओं के न	ाम	प्रतिभूति आस्ति का विवरण	13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि	एनपीए की तिथि
1. बाबू राम पुत्र शिव पूजन (कर्जदार और/या बंधककर्ता) जिस् सिनेमा, नई दिल्ली थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सब्जी मंडी, घंट ब्लॉक 40, शक्ति नगर, दिल्ली 110007। साथ ही, ई-159 विष् नगर, डीके मोहन गार्डन, दिल्ली 110059. 2. आशा कुमारी पत्नी कर्जदार और/या बंधककर्ता) जिसका पता है: ई-159 ई-ब्लॉ उत्तम नगर, डीके मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली संख्याः खाता संख्याः AFH000301335690 और 405023 ऋण का प्रकारः खुशी होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा	ा घर, जीटी रोड, खास पार्क, उत्तम बाबू राम (सह- क विश्वास पार्क, । 110059. खाता	फ्लैट संख्या 1024 का समस्त भाग, 10वीं मंजिल पर, श्रेणी- ईडब्ल्यूएस, ब्लॉक-बी, पॉकेट-1बी, कॉमन एरिया 49.990 वर्ग मीटर, कारपेट एरिया 25.000 वर्ग मीटर, सेक्टर-ए1-ए4, नरेला, दिल्ली, श्री आशा कुमारी के स्वामित्व में।	08 अगस्त 2025 तक रु. 33,84,242.78 (रुपये तैंतीस लाख चौरासी हजार दो सौ बयालीस और अठहत्तर पैसे मात्र) 01-08-2025 तक	03-08-2024 11-08-2025
1. शंकर लाल मंगला (कर्जदार) पुत्र श्याम लाल मंगला, पत नंबर 19, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली- 110031. साथ है 10034/3-सी, गली नंबर 3-जी, पश्चिम गोरख पार्क, शाहदरा, प्र के पीछे-110032। 2. विजय कुमार गोयल (सह-कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र र मकान संख्या: आर-484/2, महावीर जैन स्कूल के पास, लोहिय हरियाणा-127021. 3. रेनू (सह-कर्जदार) पत्नी शंकर लाल मं संख्या 10034/3-सी, गली संख्या 3-जी, पश्चिम गोरख पार्क, प्र विद्यालय के पीछे-110032 खाता संख्या: MOR000300137944 और 524167203019 ऋण का प्रकार:- संपत्ति पर ऋण और क्रेडिट कार्ड	ही, मकान संख्याः ग्राथमिक विद्यालय हाम बिलास, पताः हं कटली, भिवानी, हाला, पताः मकान हाहदरा, प्राथमिक	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, आवासीय क्षेत्र 147 वर्ग गज, कटली लोहिया हालु बाजार भिवाड़ी, श्री विजय कुमार गोयल के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः गली। पश्चिमः मकान किशन लाल। उत्तरः श्रीमती भगवती का मकान। दक्षिणः मकान गोपाल और अनिल।	रु. 5,71,317.03 (रुपये पाँच लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सत्रह और तीन पैसे मात्र) 07.08.2025 तक	05-फर2021 07-08-2025
1. मीनाक्षी चचलानी (कर्जदार और/या बंधककर्ता), पताः सी-62 डबल स्टोरी, मेट्रो स्टेशन के पास, गेट संख्या 4, रमेश नगर, दिल्ली-110015. इसके अलावाः एक्सएल सर्विस कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, डीएलएफ सेंटर, कोर्ट फेज-V, गुड़गांव, हरियाणा-122002. 2. सनी भारद्वाज (सह-कर्जदार) पताः एकैपेला प्रोडक्शंस, सी1बी मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली, दिल्ली, 110015 खाता संख्याः AFH000300931445 और 5363032210932490 ऋण का प्रकारः अफोर्डेबल होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा	के अधिकारों के के निर्माण अधिव (47.68 वर्ग मीत संख्या 377 के हि नगरनामक कॉलं 110018 मीनाध पूर्वः उक्त संपत्ति	ल्यूजेड-164 का पूरा भाग, छत/टेरेस साथ दूसरी मंजिल का निर्माण, आगे कारों के साथ, क्षेत्रफल 57 वर्ग गज टर), खसरा संख्या 34/7 में से प्लॉट इस्से पर निर्मित, गाँव ख्याला और चांद तोनी के क्षेत्र में स्थित, नई दिल्ली, क्षी चचलानी के स्वामित्व में। सीमाः का शेष भाग। पश्चिमः प्लॉट संख्या ॉट संख्या 377 का हिस्सा, दक्षिणः	रु. 23,17,400.87/- (रुपये तेईस लाख सत्रह हजार चालीस सौ और सतासी पैसे मात्र) 08.08.2025 तक	02/05/2025 08-07-2025
1. कौशल कुमार (कर्जदार या बंधककर्ता) पुत्र मदन कुमार पताः फ्लैट संख्या- 75/एसएफ दूसरी मंजिल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, यदुवंशी स्कूल के पास, सेक्टर-33, गुड़गांव, डाकघरः गुड़गांव, जिलाः गुड़गांव, हरियाणा- 122001. 2. अमृता कुमारी (सह-कर्जदार या बंधककर्ता) पत्नी कौशल कुमार, पताः फ्लैट संख्या-75/एसएफ, दूसरी मंजिल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, यदुवंशी स्कूल के पास, सेक्टर-33, गुड़गांव, डाकघरः गुड़गांव, जिलाः गुड़गांव, हरियाणा - 122001. खाता संख्याः AFH000301915444, 3561405161872524 और 4046386072667372 ऋण का प्रकारः अफोर्डेबल होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा	संपत्ति आईडी 10 450 वर्ग फुट क्षेत्र 30 फुट, बहादुर सिवाना मौजा न एन्क्लेव, नगर र्ग गुरुग्राम, हरियाणा में। सीमाः पूर्वः 3	ज पूरा भाग मकान संख्या 110ए/5, C6A5FP2, बारकबा, 50 वर्ग गज, त्रफल वाला, बापाईमैश, 15 फुट गुणा जेल, खसरा संख्या 151/3, वाका सहरपुर, रूपा हॉल, कॉलोनी, हंस नेगम, गुरुग्राम, तहसील और जिला के अंदर, अमृता कुमारी के स्वामित्व 50 फुट, अन्य, पश्चिमः 30 फुट, प्लॉट त्तरः 15 फुट, प्लॉट हिरिसिंह, दक्षिणः देगर मलिक	रु. 34,05,970.84/- (रुपये चौंतीस लाख पाँच हजार नौ सौ सत्तर और चौरासी पैसे मात्र) 04.08.2025 तक	07-जून-2025 11-08-2025
1. विक्रम सिंह (कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र रतन सिंह, पताः 6, गली नंबर 2, मिल्टन फैक्ट्री के पास, चमन नगर, सोनीपत, हरियाणा, सैनल मंडल के पास सोनीपत-131001. साथ ही : प्लॉट संख्या 1255, ल्हर11 उद्धप्तक, सोनीपत, हरियाणा, पावर हाउस के पास-131029 2. नेहा सिंह (सह-कर्जदार) पत्नी विक्रम सिंह, पताः 6, गली नंबर 2, मिल्टन फैक्ट्री के पास, चमन नगर, सोनीपत, हरियाणा, शनि मंदिर के पास, सोनीपत-131001. खाता संख्याः खाता संख्याः MIC000301179592 ऋण का प्रकारः- संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण- सावधि ऋण सुविधा	गज, 3/132 पार्ट खेवट संख्या 183 और किला संख्य लहरारा अंदर अ हदूद नगर नगर जमाबंदी, वर्ष 20 के स्वामित्व में। 12 फीट 2 इंच।	तं का समस्त भाग, क्षेत्रफल 48 वर्ग मुवाजी 3 कनक 6 मारिया मुंदरजा, 3, खाता संख्या 228 मुंदरजा मुस्तितला 1 35//एस/2 3-6 वाका रकबा मौजा बादी चमन नगर पटेल नगर के पास पालिका परिषद सोनलपट के अंदर, 007-2008 हरियाणा श्री विक्रम सिंह सीमाः पूर्वः कमला प्रसाद का मकान, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, 12 फीट 2 न फैक्ट्री की दीवार, 35 फीट। दक्षिणः कीट।	रु. 1,151,673.30/- (रुपये ग्यारह लाख इक्यावन हजार छह सौ तिहत्तर और तीस पैसे मात्र) 04-08-2025 तक	07-जुलाई-2025 04-08-2025
1. राजवीर (कर्जदार एवं बंधककर्ता) पुत्र सत्य पाल सिंह, पताः 11, वार्ड नंबर 11, टटीरी (ग्रामीण) बागपत, उत्तर प्रदेश-250601. प्लॉट संख्याः 65, खसरा नंबर 356, स्वरूप नगर, खड्डा कॉलोनी, पहली मंजिल, गली नंबर 2, बीकानेर स्वीट के पास, दिल्ली-110042।2. मीनाक्षी (सह-कर्जदार) पत्नी राजवीर, पताः 11, वार्ड नंबर 11, टटीरी (ग्रामीण), बागपत, उत्तर प्रदेश- 250601 खाता संख्या खाता संख्या खाता संख्या खाता संख्या खाता संख्या का प्रकारः- संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण-अविध ऋण सुविधा	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, प्लॉट/संपत्ति 113.70 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल वाला, मौजा टटीरी के खसरा 976 का हिस्सा, मोहल्ला/गाँव आबादी श्रीराम कॉलोनी, अंदर सीमा नागा पंचायत, अग्रवाल मंदिर टटीरी तहसील और जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, श्री राजवीर के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः प्लॉट सतीश कुमार त्यागी, भुजा 25 फीट। पश्चिमः रास्ता 15 फीट चौड़ा (भुजा 24 फीट)। उत्तरः जय सिंह का मकान (भुजा 51 फीट)। दक्षिणः श्रीमती राजबाला पत्नी सत्य प्रकाश का प्लॉट, (भुजा 51 फीट)।		रु. 1,344,262.26/- (रुपये तेरह लाख चौवालीस हजार दो सौ बासठ और छब्बीस पैसे मात्र) 04-08-2025 तक	15-जन2025 04-08-2025
1. रवींद्र नाथ (कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र महेंद्र सिंह, पताः प्लॉट 564 एफ1, सेक्टर-1, पहली मंजिल, इलाहाबाद बैंक के पास, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010. रामलिंग स्वामी भवन अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029. इसके अलावाः ए-83, संजय नगर, भारापुर, राजस्थान, भरतपुर-321001 2. वंदना पंवार (सह-कर्जदार) पत्नी रवींद्र नाथ, पताः प्लॉट 564 एफ1, सेक्टर-1, प्रथम तल, इलाहाबाद बैंक के पास, वैशाली, गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश-201010. इसके अलावाः 1/430. सेक्टर-	(एमआईजी) (व के अधिकार के रूम, एक किचन 65.029 वर्ग मी 1/573 पर निर्मित 1, गाजियाबाद,	ा पूरा भाग, फ्लैट संख्या एसएफ-2, तिहनी ओर) दूसरी मंजिल, (बिना छत), दो बेडरूम, ड्राइंग-सह-डाइनिंग , 2 शौचालय/स्नानघर और बालकनी, टर का कवर्ड एरिया। प्लॉट संख्या ा, वैशाली, आवासीय कॉलोनी सेक्टर- तहसील एवं जिला गाजियाबाद में पर स्थित, श्री रवींद्र नाथ के स्वामित्व	रु.33,36,297.03/- (रुपये तैंतीस लाख छत्तीस हजार दो सौ सत्तानवे और तीन पैसे मात्र) 01-08-2025 तक	03-अग2024 05-08-2025

उपर्युक्त कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) (जो भी प्रयोज्य हो) को एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत कथित 60 दिनों की समाप्त के पश्चात आगे की कार्यवाही की जायेगी।

यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि

योजना परियोजना 'जन आवास वाटिका' का विकास

परियोजना द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के नियमों

572। उत्तरः 80 फीट चौड़ी सड़क।

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010. इसके अलावाः 1/430, सेक्टर-

खाता संख्याः खाता संख्याः HLN000301051312 और दक्षिणः प्लॉट संख्या 537

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010

ऋण का प्रकारः गृह ऋण सुविधा और क्रेडिट कार्ड

3561395131188814

जयपुर, राजस्थान- 303106.

के सामने, गुड़गांव-122001

1, वैशाली, इलाहाबाद बैंक के पास, आई.ई. साहिबाबाद, 🛮 में। सीमाः पूर्वः प्लॉट संख्या 574। पश्चिमः प्लॉट संख्या

1. दिनेश कुमार (कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र जसवंत सिंह यादव, अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, ब्लॉक/टावर छ2/ऑर्किड

पताः हुडा स्टाफ, मकान नंबर 2, सेक्टर 10, एच नंबर 2 (156) में तीसरी मंजिल पर फ्लैट संख्या 0-310, 550 वर्ग

क सामने, गुड़गांव-122001. इसके अलावाः ए-459, औद्योगिक फीट क्षेत्रफल। सुपर बिल्ट अप एरिया (तदनुरूप कार्पेट

क्षेत्र, चोपानकी, भिवाड़ी, अलवर-301019. इसके अलावाः पावटा, एरिया 395.57 वर्ग फीट)। मुख्यमंत्री जन आवास

2. अंजू यादव (सह-कर्जदार और बंधककर्ता) पत्नीः दिनेश कुमार, खसरा संख्या 738/929, ग्राम- रबारका, तहसील-

पताः हुडा स्टाफ, एच नंबर 2, सेक्टर 10, मकान नंबर 2 (156) तिजारा, जिला- अलवर (राजस्थान) में जन आवास

खाता संख्या AFH000300364829 और 404638607331 4263 और शर्तों के अनुसार, संख्या 2834, श्री दिनेश कुमार

ऋण का प्रकार:- अफोर्डेबल होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा 📕 और श्रीमती अंजू यादव के स्वामित्व में।

सार्वजिनक नीलामी/बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है तब बिक्री सम्पन्न नहीं की जाएगी और प्रतिभूत संपत्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस प्रतिभृत संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

तिथि: 25.07.2025, स्थान: हरियाणा हस्ता./- (अधिकृत प्राधिकारी) यस बैंक लिमिटेड हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल ढेवलपमेंट कॉलोनी दिल्ली रोड, हिसार - 125005 (हरियाणा) ई-मेल: vchugh@hisarmetal.com; फोन: (01662) 220067, 220367, 220738 फैक्स: (01662) 220265 सीआईएन: L74899HR1990PLC030937

35वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-मतदान की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नियर इंडस्ट्रियल डेक्लपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार (हरियाणा) में 35वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही निस्तारण हेत् आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां

उन सभी सदस्यों को मेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियों के साथ पंजीकृत हैं और एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट के वेब लिंक वाला पत्र उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइट www.hisarmetal.com और http://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है । सदस्यों को रिमोट ई--मतदान से संबंधित जानकारी के साथ-साथ, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया गया है। कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, के अनुसार, संशोधित तथा

सेबी (सचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक स्थल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई—मतदान सुविधा प्रदान करने हेत् नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

- रिमोट ई—मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः मंगलवार 16 सितंबर, 2025 (प्रातः 9:00 बजे)
- 2. रिमोट ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समयः गुरुवार 18 सितंबर, 2025 (सार्य 5:00 बजे)
- रिभोट ई-मतदान की अनुमति 18 सितंबर, 2025 (साथं 5:00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी।
- 4. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 12 सितंबर, 2025 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है।
- 5. वह व्यक्ति, जो बैठक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरघारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके युजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है. यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपना मौजूदा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- в. मतदान पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई-मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान दे सकेंगे।
- 7. रिमोट ई-मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते है लेकिन बैठक में अपने मत का पूनः उपयोग नहीं 8. रिगोट ई—मतदान से संबंधित किसी पूछतांछ हेतू, सदस्य / लागार्थी स्वागी निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते है :
- श्री नरेंद्र देव, प्रबंधक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोक्षर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं. 022-48867000; ई-मेल: evoting@nsdl.com । सदस्यगण कंपनी सचिव को ई-मेल: vchugh@hisarmetal.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया लामांश, यदि कथित एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान के लिए योग्यता के निर्धारण हेतू कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 09 सितम्बर, 2025 से शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। लामांश के प्रयोजन हेतु रिकॉर्ड तिथि 8 सितम्बर, 2025 है।

> कते हिसार मेटल इंडस्टीज लिमिटेड (विशेष कुमार चुध) कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

🔪 एचएफसीएल लिमिटेड सीआईएन : L64200HP1987PLC007466

स्थान : हिसार (हरियाणा)

दिनांकः 23 अगस्त, 2025

पंजीकृत कार्यालय: 8, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन - 173213 (हिमाचल प्रदेश) वेबसाइट : www.hfcl.com, इंगेल : secretarial@hfcl.com, दूरआप : 91-1792-230644, फैक्स नं.: 91-1792-231902

38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग, रिकॉर्ड तिथि तथा बही समापन की सूचना

(यह एजीएम के संबंध में 19 अगस्त, 2025 को प्रकाशित हमारी पूर्व सूचना के अतिरिक्त है) एतदब्रारा सुचित किया जाता है कि :

 एचएफसीएल लिमिटेड ("कंपनी") की 38वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से, सामान्य तथा विशेष व्यवसाय को पूरा करने के लिए, जैसा कि 25 जुलाई, 2025 को एजीएम बुलाने के नीटिस में निर्धारित है, आयोजित होने वाली है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), इसके तहत बनाए गए

नियमों तथा सेंबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सेंबी सूचीकरण विनियम") के लागू प्रावधानों के अनुपालन में सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 तथा 09/2024 के साथ पढ़ें, दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 05 मई 2022, 28 दिसंबर 2022, 25 सितंबर 2023 तथा 19 सितंबर 2024, क्रमश: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए परिपन्न") तथा परिपन्न संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी 2021. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 विनाक 07 अक्टबर 2023. तथा SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ("सेबी परिपन्न") के अनुसार आयोजित होनी है। 2. संशोधित कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित अधिनियम की धारा 101 तथा 136 के प्रावधानों के अनुपालन में,

विलीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय को निर्धारित करने वाला नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मेजा गया है जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिमागियो/कपनी/रजिस्टार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास पंजीकृत हैं, जिनके नाम शुक्रवार, 15 अगरत, 2025 तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए कंपनी के सदस्यों / लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देते हैं। इसके अलावा सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के संदर्भ में, कंपनी ने उन शेयरधारकों को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब लिंक तथा क्यूआर कोड (सटीक पथ सहित) युक्त एक पत्र मी मेजा है, जिन्होंने हिपॉजिटरी / हिपॉजिटरी प्रतिभागियाँ / कंपनी / आरटीए के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

 ई-मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना भेजने का काम 21 अगस्त 2025 को पूरा हो गया है। इलेक्ट्रोमिक मोड के माध्यम से रिमोट वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") तथा एजीएम के दौराम ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार संशोधित तथा सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 तथा सामान्य बैठकों पर सचियीय मानक ("एसएस-2") के अनुसार भौतिक रूप या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की गई एजीएम के स्थान ("रिमोट ई-बोटिंग") के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निधारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि

i) एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के माध्यम से किया जाएगा।

ii) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी।

iii) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 14 सितंबर, 2025 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी तथा इस समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। iv) एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग तथा / या ई-वोटिंग द्वारा वोट देने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार 8 सितंबर, 2025

है। सदस्य के बोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार 8 सितंबर 2025 को कंपनी की इक्विटी शेयर पंजी में उनके शेयरों के चकता मृत्य के अनुपात में होंगे। v) कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर या कंपनी को secretarial@hfcl.com पर या एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड

(युनिट : एचएफसीएल लिमिटेड) के आरटीए को admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध मेजकर, अपने फोलियो नंबर ∕ डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करके यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-बोटिंग / ई-बोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो सदस्य एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए मीजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

vi) सदस्यगण घ्यान दें कि:

क) एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर बोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी; ख) एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर वोटिंग की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध होगी;

ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग किया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से अपना वोट **घ)** एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डियॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि, यानी, सोमवार,

8 सितंबर, 2025 तक दर्ज किया गया है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार

 जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सुचना के उदेश्य के लिए लेना चाहिए। vii) रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश एजीएम के नोटिस तथा प्रत्येक शेयरधारक को भेजे गए ई-मेल में

viii) रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर

'डाउनलोड' अनुमाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-बोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ से सकते है या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते है या सुश्री परलवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), तीसरा तल, नमन चेंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र- 400051 से निर्दिष्ट ई-मेल पते पर संपर्क कर सकते हैं evoting@nsdl.com

ix) कंपनी के निदेशक मंडल ने अंकित मूल्य रु. 1/- प्रति इकिवटी शेयर पर 10: की दर से अंतिम लागांश, अर्थात रु. 0.10/- (केवल दस पैसे) की लिफारिश की है। यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अंतिम लामांश को मंजूरी दे दी जाती है, तो उसका भुगतान वार्षिक आम बैठक के 30 दिनों के मीतर किया जाएगा। इसके अलावा, कृपया आय कर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लाभांश पर स्रोत पर कर की कटीती के संबंध में शेयरधारकों को 19 जून, 2025 को मेजे गए हमारे ई-मेल संचार का संदर्भ ले।

x) कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को तथ किया है, यदि एजीएम में अनुमोदित किया जाता है।

xi) श्री बलदेव सिंह कश्तवाल (एफसीएस-3616 तथा सीओपी नंबर 3169), प्रैविटसिंग कंपनी सचिव, को कंपनी के निवेशक मंडल द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से एजीएम के दौरान संपूर्ण रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा ई-वोटिंग की जांच

xii) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य अपनी तथा से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूँकि यह एजीएम, एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा इसलिए ग्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्मी तथा एजीएम का रूट मैप सूचना के साथ सलग्न नहीं है। तथापि, जो कॉर्पोरेट सदस्य जो अधिनियम की घारा 113 के अनुसार अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का इरादा रखते हैं. जैसा भी मामला हो, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए या एजीएम के दौरान रिमोर्ट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए, जनसे अनुरोध है कि वे बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जांचकर्ता को ई-मेल हारा scrutinizer@hfcl.com पर मेजें, जिसकी एक प्रतिलिपि एनएसडीएल को evoting@nsdl.com पर तथा कंपनी को secretarial@hfcl.com पर भेजी जाए।

xiii) जिन शेयरधारकों के पास भीतिक रूप में शेयर हैं तथा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते/केवाईसी विवरण पंजीकृत/अपडेट/पूरा नहीं किया है, वे विधिवत भरे तथा हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 (पैन, कंवाईसी विवरण या उसमें बदलाव/अपडेशन के लिए फॉर्म) जो कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com पर उपलब्ध है, कंपनी के आरटीए को admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी के सविवीय विभाग को secretarial@hfcl.com पर ई-मेल द्वारा मेजकर पंजीकरण/अपबेट/पूरा करवा सकते हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने ई-मेल पते / केवाईसी विवरण को पंजीकृत / अपडेट / पूरा करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागियों से संपर्क कर सकते हैं / उन्हें लिख सकते हैं। इससे शेयरचारकों को अपने शेयर/अप्रवत्त लागांश को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण/निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि खाते के डीमैट खाते में अंतरित करने से बचने में मदद मिलेगी।

मतदान परिनाम

08-दिस.-2024

05-08-2025

सत्तासी हजार चार सौ

चौरानवे और छत्तीस

पैसे मात्र)

संबीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ मतदान परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.com पर तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की देवसाइट www.bseindia.com पर बैठक की समाप्ति के 2 कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष या जनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान परिणामों की घोषणा के बाद, रखे जाएंगे। अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, प्रस्ताव 38वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि अर्थात 15 सितंबर, 2025 को पारित माने जाएँगे। बही समापन

एतदद्वारा यह भी सृष्टित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुसार,

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर इस्तांतरण बहीखाते वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा लामांश के उद्देश्य से मंगलवार 9 सितंबर 2025 से कृते एचएफसीएल लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली दिनोंक : 22 अगस्त 2025

सोमवार 15 सितंबर 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

(अगोज बैद)

अध्यक्ष तथा कंपनी सचिव

हस्ता./-

epaper.jansatta.com



यू ग्रो कैपिटल लिभिटेड

चौथी मंजिल, टॉवर 3, इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, एलबीएस रोड, कुर्ला, मुंबई 400070

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (नियम) के प्रावधानों के तहत। अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नियम 3 के साथ, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते

44.50,790/- (केवल चौवालीस लाख पचास हजार सात

सौ नब्बे रुपये) 04 अगस्त 2025 तक

बच रहे	का आह्वान करते हैं। नीचे हस्ताक्षरकर्ता का यथोचित मानना हे हैं, इसलिए मांग नोटिस की तामील नियमों के अनुसार चिपका षय—वस्तु नीचे उद्धृत की गई हैः	है कि उधारकर्ता(ऋणकर्ता) मांग नोटिस की तामील से कर और प्रकाशित करके की जा रही है। मांग नोटिस
क्र.सं.	उधारकर्ता(ओं) के नाम	मांग सूचना की तिथि और राशि
	1) हसीब मेन्स वियर 2) हबीब नसीब खान	मांग सूचना की तिथिः 07 अगस्त 2025 सूचना राशिः रू.

3)मोहम्मद हसीब हबीब खान

4) कैसर हबीब खान

हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि

मांग सचना

लैन - यूजीपीएनएलएमएस0000070732 सरिक्षत परिसंपत्तियों का विवरण:- "आवासीय भूखंड संख्या 41, क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट अर्थात 92.936 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 751 मिन का भाग, राम नगर, वार्ड ठाकुरगंज, तहसील एवं जिला लखनऊ में स्थित है। इसके चारों ओर निम्नलिखित क्षेत्र हैं: - पूर्व में: भूखंड संख्या 40, परिचम में: भूखंड संख्या 42, उत्तर में: 20 फीट चौड़ा मार्ग, दिक्षण में: सिमित का भूखंड।"

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, साथ ही भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, विलंबित भुगतान दंड, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय आदि का भुगतान करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि यूग्रो कैपिटल लिमिटेड एक सुरक्षित ऋणदाता है और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा **यू ग्रो कैपिटल लिमिटेड** के पास उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई अचल संपत्ति के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहता है, तो यूग्रो कैपिटल लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें उधारकर्ता के ऋण खाते में बकाया राशि वसूलने के लिए बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। युग्नो कैपिटल लिमिटेड को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को कुर्क करने और / या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, यूग्रो कैपिटल लिमिटेड को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि सुरक्षित परिसंपत्तियों का मूल्य उधारकर्ता द्वारा यूग्रो कैंपिटल लिमिटेड को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय **युग्नो कैपिटल लिमिटेड** को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को यूग्रो कैंपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित परिसंपत्तियों का निपटान या लेन-देन करने या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को हस्तांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति नीचे हस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो नीचे हस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थानः लखनऊ दिनांकः 23.08.2025

P R HOLDINGS LIMITED Regd. Office: R-489, GF-C, New Rajinder Nagar, New Delhi - 110060 Tel: 011-42475489 Website: www.prholding.in Email: prholding1983@gmail.com **CIN**: L27310DL1983PLC314402 NOTICE

Pursuant to Listing Agreement(s) with MSEI Ltd. & CSE, Notice/Intimation is given that Meeting(s of Audit Committee, Remuneration & Nomination Committee and Board of Directors is scheduled to be held on TUESDAY - 02.09.2025 at 12:30 & 01:00 & 01:30 P.M. respectively at its Regd. Office inter-alia to consider & approve NOTICE of 42ND ANNUAL GENERAL MEETING alongwith Notes, Directors Report, MGT-9, Secretarial Audit Report, Management Discussion & Analysis Report, Secretarial Compliance Report, PCS Certificate, Corporate Governance Report, Policies Committees, Book Closure Dates, AGM details, Audited Financial Statements with Audit Reports of FY ended 31.03.2025, appointment of Director(s) & Statutory Auditors, List of Resolutions Correspondence with RTA, CDSL, NSDL, E-voting, Scrutinizer, Annual Report of FY 2024-25 Etc. Trading Window in equity shares will remain closed from 01.07.2025 to 05.09.2025 for all insiden and any other matter with the permission of Chair. {Kindly also refer OUTCOME/PROCEEDINGS of Board Meeting held on 01.08.2025}

New Delhi 20.08.2025 SAKSHI GUPTA WTD & CFO - DIN: 09773654 Members are requested to Update their Contact details, address, PAN, Email Id, etc for your Company's updates, announcements, correspondence, etc.

मनाप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड शुर्व मेरू मचपुरन होन प्राहनेंस प्राहकेट लिमिटेड)

विद्या कार्योत्तवः IV.41वर (पुरान), कार्यु कार्यर (नवा) सम्बन्धन शासन, वास्तवः, विद्युः, केरतः – कार्यः क्रोतीयः वार्यान्यतः परापुरम् रोग प्रायुत्तेन विशिदेवः, वीचरी मंत्रितः, यूनीयः नेतर उठाः से 216. ए वित्रः, "क्रान्तिकः वीतः सूर्वियः", अमेरी-सूर्तां गोदः असेरी (हिन्द) पुंची – 43000. नदाराण्यः

मांग सूचना जेला कि मन्द्रपुरन होत्र प्राहरीत निर्मिरेट, जिलाका पंजीकत कार्यक्रय IV/4/600पुराना अस्तरक्रत (नाम), समायस हाउस जलपाड, क्रियन

केरत व इक्कडर में विभाग में तथा जिसाकी बाध्यार भारत के विकित्त प्रधानों या विभाग में (इसके बाव "एक्एक्डवेएकआईएन" विवित्त), कंपनी अधिनेयम. 1966 के तहत पंजीकृत एक कपन्दै एवं दिलीय संपत्तियों के प्रतिमृतिकाल और पुनर्निमान तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनिधन, 2002 (इसके बाद "अधिनिधन" विदित) की धारा 2 की राजधार (1) के खंद (एन) की उपखंड (६४) में वर्णित रूप में एक वितीध संस्थान t, ono जिसे मान्त सरकार, विलीव सेवा विभाग, किंत माजलव, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16 दिसंबर, 2016 को जारी अधिकृतन संख्य एक. तो. 3468ड़ि के अंगर्गत विवेदिया किया गया है. जो सहय क्या से अवगत इवाहयों के निर्माण औरच्या स्वरीद हेत ऋण प्रदान करने के द्रवराय में मारान है और फैसकि नीवे लातिका के काँतम संबद्ध 2 में वर्षित ऋगवाता / सह-ऋगवाता ने एमएकओएसआईएन से क्रम प्राप्त किया था. और जैसाकि, रमएएवओएकआईएमें, सर्वनी अधिनियम के तहत एक प्रतिबृह ऋणदाता होने के नाते तथा उत्त अधिनियम ही पाठ (10) में राज परित्र प्रतिपति हिंद (प्रवर्तन) निवन 2002 के निधम 2 के अंतर्पत प्रचल अधिकारों का प्रयोग करते कर एक उधरकतांओं / सह–उधारकतांओं को शुपना जारी कर 80 दिनों की अवधि के बीतन सुवना में तस्तिरिक्त राणि के भुगरान करने ठेटू निर्देश विवा घर किन्तु विकिन करायों से उनमें से कुछ को उन्तर सुकता सर्व नहीं किया जा सका। उसर उपलेख संवर्ग में एवं नीचे पारतीविक

쀨	उमारकर्ता सह-समारकर्ता का नाम/सन् राजा	प्रतिमृत संपत्ति का विवरण जिसके सिये प्रतिमृति कित निर्मित किया गया है।	एक्पीए सिम्ब	नेजी गये जूवन की विधि और स्काव गाँगि
1	सुखर्देई मीना. राज्यकुमार मीना, राज्येद्र कुमार मीना, NLAP045203E705/ जयपुर	खसरा सं. १५६, यांच खिरकिरी प्राम पंचायत मंद्रेक, पंखयत समिति टोकाम, एम. कर्याली में महा सं. 6916 कर प्लॉट, होइम्पल 227.77 वर्ग पुट, जो ग्राम पंचायत मंद्रेक के अधिकार क्षेत्र और उप-पंजीयक टोकामीम, राजस्थान की लीकाओं के मीतर है, पिन कोंकर 321611। पूर्व-रामेश्वर और शिवधरण की कृषि धूमि, परिचन-कश्चि प्रसाद और राजेंद्र का बगीपा, दक्षिण-बाबू लाल मीना की कृषि सूनि, चतर-माक्षा रास्ता।	08-08- 2025	09-08-2026 97 W 962463/-
Par.	वत्तीयम पूर्जर सुमन मुर्जर, धर्मसिह मुर्जर, समग्रद मुर्जर/ NHL06520629885/ जयपुर	गांव मालपुरा, बाम बंधावत नदारी, बंधावत समिति सिळनाय, दीला में बहा से 18, संकट्स से 54 का फर्तिट सेमकल १७६६६६ वर्ग गर्म जो ग्राम पंचाधार नदारी के अधिकार क्षेत्र और एय-पंजीवक मिकराय, राजनयन जी सीमाओं के बीतर है, पिन कोठल ३००५००। पूर्व-वर्मवद गुर्वन की कृषि भूमि, परिवम-साम्रा सन्ता, प्रविम-महेश का घर जतर-स्वय की सुनी भूमि।	08-08- 2025	09-06-2025 एव - ठ. ७४४५६१/-

अतः, उपपुंतः अध्यक्षत्री सह-अध्यक्षत्रों को सुवित किया जाता है कि ये इस सुवना के प्रकारन की तिथि से 60 दिनों के बीतर सम्बंधित कवनकर्तान्सर-अवनकर्ता के नाम के समक्ष वर्षित कुल बादवा शर्ति का भूगतान करे। यदि सम्बद्धित जवनकर्तान्सर-जवनकर्ता द्वारा ब्याज हे साथ बात बकाया राणि का निवारित राजवार्यों में पुनतान नहीं किया गया, तो एपएएएओएफआईएन अधिनियम वी बास 19(4) के अंतरीत अधिकारों का प्रयोग करते हुए, संपंक्ति पर प्रतिकृति हिंत के प्रधानित की प्रतिका आएंक करेगा। अधिनित्तन तथा उसके अंतर्गत निर्मित निर्मात हें अनुसार अन्य तरीके से भी सूचना की सेवा के कदम उताए जा रहे हैं बसाय ही आपको यह भी खुरित किया जाता है कि पदि संबंधित मंपीत के बाति सभी बकाया लाहियों का एमएएवाबीएफआईएन द्वारा वहन की नई लागत, शुक्त एवं कार्वे महित सम्बंधी अधिनियम की वारा 13(8) के अनुसार सर्वशनिक नीतानी या निजी सींधे के लिये सुवान से प्रकातन में पूर्व किसी भी समय में भूगधान कर दिया जाता है, तो यह भी जयान रहे कि सर्वेसी अधिनियम की धारा 19(19) के मंदर्गत माधको दिवरे, पहा अध्या किसी मन्य ठरीके से प्रतिभूत परिश्यति का

अंतरण एवं अध्यक्ष व्यवसंख बनने से विषेत किया जाता है । हत्ता... अधिकृत अधिकारी, मनापुरम होग फाइनेंस जि. विनांक 23 अगस्त 2025, स्थान राजस्थान



जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L35911HR1965PLC004485 पंजीकृत कार्यालयः जय स्प्रिंग्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, यमुना नगर-135001, हरियाणा कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट नं. 408, चौथी मंजिल, टावर-बी, वाटिका माइंडस्केप्स, सेक्टर-27डी, एनएच2, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा),दूरभाष-0129-4006885;

वेबसाइटः www.jaispring.com ईमेल आईडी: investor.relations@jaispring.com

आईईपीएफ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) डीमैट खाते में वित्तीय वर्ष 2018—19 (अंतिरम) की गैर भूगतेय और दावा न की गई लाभांश राशि और कंपनी के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण।

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 124(5) और (६) के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 (''नियम'') के नियम 5 और 6 के अनुसार, कंपनी को अनिवार्य रूप से सात वर्षों की अवधि के लिए दावा न किए गए या भूगतान न किए गए लाभांश को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित करना आवश्यक

कंपनी को ऐसे सभी शेयर भी आईईपीएफ डीमैट खाते में स्थानांतरित करने होंगे, जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भूगतान या

दावा नहीं किया गया है। आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के बाद, दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं किया जाएगा। तदनुसार, निम्नलिखित को आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है:

	आईईपीएफ में स्थानांतरण का	आईईपीएफ में स्थानातरण	आईईपीएफ में स्थानांतरण की नियत तिथि
	विवरण	की नियत तिथि	
l	दावारहित लाभांश वित्तीय वर्ष	13 दिसंबर, 2025	28 नवंबर 2025 को या उससे पहले
	2018—19 (अंतिरम)		
			11 - 1 1/2 0 1 1 - 0

|व्यक्तिगत नोटिस पहले ही उन संबंधित शेयरधारकों को भेजे जा चुके हैं, जिनके शेयर उचित कार्रवाई करने के लिए वित्त वर्ष 2025—26 के दौरान आईईएफपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित िकिए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। कंपनी ने उन शेयरधारकों का विवरण भी अपनी वेबसाइट https://www.jaispring.com पर अपलोड किए गए हैं जिनके शेयर और लाभांश आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित होने के लिए नियत है। यदि आपने पिछले सात लगातार वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है और राशि आपके फोलियो/डीमैट खाते में गैर भुगतान /अदावाकृत पड़ी है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज भेजकर उपरोक्त लाभांश के लिए अपना दावा प्रस्तुत करें:

(प) सभी संयुक्त धारकों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक औपचारिक पत्र, यदि कोई हो (पप) पैन कार्ड और पते के प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी

(पपप) रद्द किए गए चेक या बैंक स्टेटमेंट, पासबुक आदि की प्रति (पअ) सेबी के हालिया परिपत्र के अनुसार केवाईसी फॉर्म लागू है। फॉर्म / प्रारूप कंपनी की

वेबसाइट www.jaispring.com पर निवेशक संबंध टैबझ कॉरपोरेट गवर्नेंसझ केवाईसी अपडेट के तहत उपलब्ध हैं।

कृपया उपरोक्त दस्तावेज कंपनी या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (यानी मैसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को नीचे दिए गए पते पर भेजें: –

I	कंपनी को	रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को
I	जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
I	चौथी मंजिल, टॉवर बी, वाटिका माइंडस्केप,	डी–153 ए, प्रथम तल,ओखला इंडस्ट्रियल एरिया,
I	मथुरा रोड, सेक्टर—27डी,	फेज–1, नई दिल्ली–110020,फोन नंबरः
I	फरीदाबाद—121003, हरियाणा	011-40450193-97 ईमेलः parveen@skylinerta.com
I	संपर्क नंबर 0129-4006885	grievances@skylinerta.com
١	ईमेलः investor.relations@jaispring.com	संपर्क हेतु व्यक्तिः श्री परवीन शर्मा
ı		

शेयरधारकों से यह नोट करने का अनुरोध किया जाता है कि यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर लाभांश का नकदीकरण या दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी को बिना किसी अन्य सूचना के उक्त नियत तारीख तक आईईपीएफ डीमैट खाते में शेयरों को स्थानांतरित करने के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक होगा। कृपया यह भी ध्यान रखें कि उपरोक्त शेयरों के संबंध में अर्जित सभी बाद के कॉर्पोरेट लाभ

जैसे बोनस शेयर, लाभांश आदि भी उक्त आईईपीएफ डीमैट खाते में जमा किए जाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ खाते में लाभांश और शेयरों के हस्तांतरण के बाद, शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण से दावा न किए गए लाभांश राशि और शेयरों दोनों के लिए एमसीएवी3 की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ–5 में एक ऑनलाइन आवेदन करके दावा कर सकता और फॉर्म आईईपीएफ-5 में इसकी विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति कंपनी को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेजना।

> कृते जामना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता. / —

> > प्रवीण लखेड़ा

स्थानः फरीदाबाद दिनांकः 22 अगस्त, 2025 कंपनी सचिव और प्रमुख–कानूनी

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड

(CIN: L99999DL1984PLC019052) **पंजीकृत कार्यालय:** 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट संख्या 2, सामुदायिक केंद्र,

रोड संख्या ४४ के किनारे, पीतमपुरा, नई दिल्ली – 110034 वेबसाइट: www.agarwalduplex.net; ईमेल आईडी: agarwalduplex1984@gmail.com

फोन: +91 11 47527700, फ़ैक्स - +91 11 47527777 वार्षिक आम बैठक की सचना रतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 41^व वार्षिक आम बैठक **शुक्रवार, 26 सितंबर 2025 को पूर्वाह 11.30**

क्जे वीडियो कॉन्क्रेंसिंग, अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों ("वीसी/ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कॉर्पीरट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या १४/२०२० दिनांक ८ अप्रैल, २०२०, परिपत्र संख्या १७/२०२० दिनांक १३ अप्रैल, २०२० और परिपत्र संख्या २०/२०२० दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, और सामान्य परिपत्र संख्या 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 और परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 के अनुपालन में और भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी अधिसूचना SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के अनुसार, कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति है, जिसमें सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। इसलिए, कंपनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्क्रेसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है ताकि नोटिस मे उल्लिखित कार्य निष्पादित किए जा सकें।

41" वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना शेयरधारकों को केवल तभी व्यक्तिगत रूप से ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएगी, जब उनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी/रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के पास पंजीकृत हो। एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, एजीएम की सुचना की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। 41° वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://www.agarwalduplex.net/notices, स्टॉक एक्सचेज की वेबसाइट www.msei.in और www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

भौतिक रूप में ग्रोयर रखने वाले सदस्यों, जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते और केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं, से अनुरोध है कि वे कंपनी को agarwalduplex.1984@gmail.com पर या कंपनी के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को beetalrta@gmail.com पर लिखकर अपना केवाईसी अपडेट करें, साथ ही कंपनी और आरटीए वेबसाइट पर उपलब्ध हस्ताक्षरित फॉर्म की प्रति भी भेजें। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों तथा कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अग्रतन न करने वाले सदस्यों के लिए एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग का तरीका एजीएम की सूचना में दिया गया है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप श्री पुनीत मित्तल, महाप्रबंधक, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से <u>beetalrta@gmail.com</u> टेलीफोन नंबर 011 29961281 पर या श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल,) सेंट्ल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड. ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंडस, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 पर संपर्क कर सकते हैं या <u>helpdesk evoting@cdslindia.com</u> पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-23058542/43 पर कॉल कर सकते हैं।

इसके अलावा, सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसार, सेबी केवल उन हस्तांतरण विलेखों को पुन: दाखिल करने के लिए एक विशेष विडो खोलने का निर्णय लिया है, जो 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दाखिल किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्य कारणों से अस्वीकृत/वापस कर दिए गए थे/उपस्थित नहीं हुए थे। यह अवधि 07 जुलाई, 2025 से 06 जनवरी, 2026 तक छह महीने की अवधि के लिए रहेगी। यदि कोई शेयरधारक हस्तांतरण विलेख पुन: दाखिल करना बाहता है. तो वह बीटत फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री पुनीत मित्तल से <u>beetalrta@gmail.co</u>n पर संपर्क कर सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते अग्रवाल इप्लेक्स बोर्ड मिल्स लिमिटेड हस्ताक्षरित/ (रेणु मलिक) कंपनी संविव एवं अनुपालन अधिकारी

YES // BANK

दिनांक: 23.08.2025

स्थान: दिल्ली

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी)

य जो कैपिटल लिमिटेड के लिए, authorised.officer@ugrocapital.com

पंजीकृत और कॉपोरेंट कार्यालय : यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज ईस्ट, मुंबई-400055, वेबसाइट: www.yesbank.in, ई-मेल : communications@yesbank.in, सीआईएन : L65190MH2003PLC143249,

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना का प्रकाशन

एतद्वारा निम्नलिखित कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) को जिन्होंने बैंक से उनके द्वारा ग्रहण किए गये मूलधन तथा ऋण सुविधा के ब्याज के पुनर्भुगतान में चक की है तथा जिनके ऋण खाते गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकत किये गये हैं. को सचना दी जाती है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण

में चूक की है तथा जिनके ऋण खाते गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किये गये हैं, को सूचना दी जाती है। उन्हें वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम) के तहत उनके अन्तिम ज्ञात पर सूचनाएं जारी की गयी थीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।				
कर्जदारों, सह-कर्जदारों, बंधककर्ताओं के नाम		प्रतिभूति आस्ति का विवरण	13(2) सूचना के	एनपीए की तिथि
1. बाबू राम पुत्र शिव पूजन (कर्जदार और/या बंधककर्ता) जिसका पता है: अंबा सिनेमा, नई दिल्ली थियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सब्जी मंडी, घंटा घर, जीटी रोड, ब्लॉक 40, शिक्त नगर, दिल्ली 110007। साथ ही, ई-159 विश्वास पार्क, उत्तम नगर, डीके मोहन गार्डन, दिल्ली 110059. 2. आशा कुमारी पत्नी बाबू राम (सह-कर्जदार और/या बंधककर्ता) जिसका पता है: ई-159 ई-ब्लॉक विश्वास पार्क, उत्तम नगर, डीके मोहन गार्डन, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। 110059. खाता संख्या: खाता संख्या: AFH000301335690 और 40502360 20091766 ऋण का प्रकार: खुशी होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा		फ्लैट संख्या 1024 का समस्त भाग, 10वीं मंजिल पर, श्रेणी- ईडब्ल्यूएस, ब्लॉक-बी, पॉकेट-1बी, कॉमन एरिया 49.990 वर्ग मीटर, कारपेट एरिया 25.000 वर्ग मीटर, सेक्टर- ए1-ए4, नरेला, दिल्ली, श्री आशा कुमारी के स्वामित्व में।	अनुसार बकाया राशि 08 अगस्त 2025 तक रु. 33,84,242.78 (रुपये तैंतीस लाख चौरासी हजार दो सौ बयालीस और अठहत्तर पैसे मात्र) 01-08-2025 तक	03-08-2024 11-08-2025
1. शंकर लाल मंगला (कर्जदार) पुत्र श्याम लाल मंगला, पताः 3990/6, गली नंबर 19, अजीत नगर, गांधी नगर, दिल्ली- 110031. साथ ही, मकान संख्याः 10034/3-सी, गली नंबर 3-जी, पश्चिम गोरख पार्क, शाहदरा, प्राथमिक विद्यालय के पीछे-110032। 2. विजय कुमार गोयल (सह-कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र राम बिलास, पताः मकान संख्याः आर-484/2, महावीर जैन स्कूल के पास, लोहियां कटली, भिवानी, हिरयाणा-127021. 3. रेनू (सह-कर्जदार) पत्नी शंकर लाल मंगला, पताः मकान संख्या 10034/3-सी, गली संख्या 3-जी, पश्चिम गोरख पार्क, शाहदरा, प्राथमिक विद्यालय के पीछे-110032 खाता संख्याः MOR000300137944 और 5241672030199875 ऋण का प्रकारः- संपत्ति पर ऋण और क्रेडिट कार्ड		अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, आवासीय क्षेत्र 147 वर्ग गज, कटली लोहिया हालु बाजार भिवाड़ी, श्री विजय कुमार गोयल के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः गली। पश्चिमः मकान किशन लाल। उत्तरः श्रीमती भगवती का मकान। दक्षिणः मकान गोपाल और अनिल।	रु. 5,71,317.03 (रुपये पाँच लाख इकहत्तर हजार तीन सौ सत्रह और तीन पैसे मात्र) 07.08.2025 तक	05-फर2021 07-08-2025
1. मीनाक्षी चचलानी (कर्जदार और/या बंधककर्ता), पताः सी-62 डबल स्टोरी, मेट्रो स्टेशन के पास, गेट संख्या 4, रमेश नगर, दिल्ली-110015. इसके अलावाः एक्सएल सर्विस कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी और तीसरी मंजिल, डीएलएफ सेंटर, कोर्ट फेज-V, गुड़गांव, हरियाणा-122002. 2. सनी भारद्वाज (सह-कर्जदार) पताः एकैपेला प्रोडक्शंस, सी1बी मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली, दिल्ली, 110015 खाता संख्याः AFH000300931445 और 5363032210932490 ऋण का प्रकारः अफोर्डेबल होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा	संपत्ति संख्या डब्ल्यूजेड-164 का पूरा भाग, छत/टेरेस के अधिकारों के साथ दूसरी मंजिल का निर्माण, आगे के निर्माण अधिकारों के साथ, क्षेत्रफल 57 वर्ग गज (47.68 वर्ग मीटर), खसरा संख्या 34/7 में से प्लॉट संख्या 377 के हिस्से पर निर्मित, गाँव ख्याला और चांद नगरनामक कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, नई दिल्ली, 110018 मीनाक्षी चचलानी के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः उक्त संपत्ति का शेष भाग। पश्चिमः प्लॉट संख्या 376। उत्तरः प्लॉट संख्या 377 का हिस्सा, दक्षिणः सड़क 30 फीट।		रु. 23,17,400.87/- (रुपये तेईस लाख सत्रह हजार चालीस सौ और सतासी पैसे मात्र) 08.08.2025 तक	02/05/2025 08-07-2025
1. कौशल कुमार (कर्जदार या बंधककर्ता) पुत्र मदन कुमार पताः फ्लैट संख्या- 75/एसएफ दूसरी मंजिल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, यदुवंशी स्कूल के पास, सेक्टर-33, गुड़गांव, डाकघरः गुड़गांव, जिलाः गुड़गांव, हिरयाणा- 122001. 2. अमृता कुमारी (सह-कर्जदार या बंधककर्ता) पत्नी कौशल कुमार, पताः फ्लैट संख्या-75/एसएफ, दूसरी मंजिल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, यदुवंशी स्कूल के पास, सेक्टर-33, गुड़गांव, डाकघरः गुड़गांव, जिलाः गुड़गांव, हिरयाणा - 122001. खाता संख्याः AFH000301915444, 3561405161872524 और 4046386072667372 ऋण का प्रकारः अफोर्डेबल होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा	अचल संपत्ति का पूरा भाग मकान संख्या 110ए/5, संपत्ति आईडी 1C6A5FP2, बारकबा, 50 वर्ग गज, 450 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला, बापाईमैश, 15 फुट गुणा 30 फुट, बहादुर जेल, खसरा संख्या 151/3, वाका सिवाना मौजा नाहरपुर, रूपा हॉल, कॉलोनी, हंस एन्क्लेव, नगर निगम, गुरुग्राम, तहसील और जिला गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर, अमृता कुमारी के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः 30 फुट, अन्य, पश्चिमः 30 फुट, प्लॉट डी.एस. राठी, उत्तरः 15 फुट, प्लॉट हरिसिंह, दक्षिणः 15 फुट, प्लॉट दिगर मिलक		रु. 34,05,970.84/- (रुपये चौंतीस लाख पाँच हजार नौ सौ सत्तर और चौरासी पैसे मात्र) 04.08.2025 तक	07-जून-2025 11-08-2025
1. विक्रम सिंह (कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र रतन सिंह, पताः 6, गली नंबर 2, मिल्टन फैक्ट्री के पास, चमन नगर, सोनीपत, हरियाणा, सैनल मंडल के पास सोनीपत-131001. साथ ही : प्लॉट संख्या 1255, ल्हर11उउउपक्षक, सोनीपत, हरियाणा, पावर हाउस के पास-131029 2. नेहा सिंह (सह-कर्जदार) पत्नी विक्रम सिंह, पताः 6, गली नंबर 2, मिल्टन फैक्ट्री के पास, चमन नगर, सोनीपत, हरियाणा, शनि मंदिर के पास, सोनीपत-131001. खाता संख्याः खाता संख्याः MIC000301179592 ऋण का प्रकारः- संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण- सावधि ऋण सुविधा	यह अचल संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 48 वर्ग गज, 3/132 पार्ट मुवाजी 3 कनक 6 मारिया मुंदरजा, खेवट संख्या 183, खाता संख्या 228 मुंदरजा मुस्तितल और किला संख्या 35//एस/2 3-6 वाका रकबा मौजा लहरारा अंदर आबादी चमन नगर पटेल नगर के पास हदूद नगर नगर पालिका परिषद सोनलपट के अंदर, जमाबंदी, वर्ष 2007-2008 हरियाणा श्री विक्रम सिंह के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः कमला प्रसाद का मकान, 12 फीट 2 इंच। पश्चिमः अन्य का प्लॉट, 12 फीट 2 इंच। उत्तरः मिल्टन फैक्ट्री की दीवार, 35 फीट। दक्षिणः गली/रास्ता, 35 फीट।		फ. 1,151,673.30/- (रुपये ग्यारह लाख इक्यावन हजार छह सौ तिहत्तर और तीस पैसे मात्र) 04-08-2025 तक	07-जुलाई-2025 04-08-2025
1. राजवीर (कर्जदार एवं बंधककर्ता) पुत्र सत्य पाल सिंह, पताः 11, वार्ड नंबर 11, टटीरी (ग्रामीण) बागपत, उत्तर प्रदेश-250601. प्लॉट संख्याः 65, खसरा नंबर 356, स्वरूप नगर, खड्डा कॉलोनी, पहली मंजिल, गली नंबर 2, बीकानेर स्वीट के पास, दिल्ली-110042। 2. मीनाक्षी (सह-कर्जदार) पत्नी राजवीर, पताः 11, वार्ड नंबर 11, टटीरी (ग्रामीण), बागपत, उत्तर प्रदेश- 250601 खाता संख्या खाता संख्या खाता संख्या खाता संख्या खाता संख्या खाता संख्या स्वाता संख्या खाता संख्या खाता प्रकार:- संपत्ति पर सूक्ष्म ऋण-अविध ऋण सुविधा	अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा, प्लॉट/संपत्ति 113.70 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल वाला, मौजा टटीरी के खसरा 976 का हिस्सा, मोहल्ला/गाँव आबादी श्रीराम कॉलोनी, अंदर सीमा नागा पंचायत, अग्रवाल मंदिर टटीरी तहसील और जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, श्री राजवीर के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः प्लॉट सतीश कुमार त्यागी, भुजा 25 फीट। पश्चिमः रास्ता 15 फीट चौड़ा (भुजा 24 फीट)। उत्तरः जय सिंह का मकान (भुजा 51 फीट)। दक्षिणः श्रीमती राजबाला पत्नी सत्य प्रकाश का प्लॉट, (भुजा 51 फीट)।		रु. 1,344,262.26/- (रुपये तेरह लाख चौवालीस हजार दो सौ बासठ और छब्बीस पैसे मात्र) 04-08-2025 तक	15-जन2025 04-08-2025
1. रवींद्र नाथ (कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र महेंद्र सिंह, पताः प्लॉट 564 एफ1, सेक्टर-1, पहली मंजिल, इलाहाबाद बैंक के पास, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010. रामिलंग स्वामी भवन अंसारी नगर, नई दिल्ली-110029. इसके अलावाः ए-83, संजय नगर, भारापुर, राजस्थान, भरतपुर-321001 2. वंदना पंवार (सह-कर्जदार) पत्नी रवींद्र नाथ, पताः प्लॉट 564 एफ1, सेक्टर-1, प्रथम तल, इलाहाबाद बैंक के पास, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010. इसके अलावाः 1/430, सेक्टर-1, वैशाली, इलाहाबाद बैंक के पास, आई.ई. साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 खाता संख्याः खाता संख्याः HLN000301051312 और 3561395131188814 ऋण का प्रकारः गृह ऋण सुविधा और क्रेडिट कार्ड	रूम, एक किचन, 2 शौचालय/स्नानघर और बालकनी, 65.029 वर्ग मीटर का कवर्ड एरिया। प्लॉट संख्या 1/573 पर निर्मित, वैशाली, आवासीय कॉलोनी सेक्टर- 1, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद में फॉइलविंग सीमा पर स्थित, श्री रवींद्र नाथ के स्वामित्व में। सीमाः पूर्वः प्लॉट संख्या 574। पश्चिमः प्लॉट संख्या 572। उत्तरः 80 फीट चौड़ी सड़क।		रु.33,36,297.03/- (रुपये तैंतीस लाख छत्तीस हजार दो सौ सत्तानवे और तीन पैसे मात्र) 01-08-2025 तक	03-अग2024 05-08-2025

जयपुर, राजस्थान- 303106. पैसे मात्र) 2. अंजु यादव (सह-कर्जदार और बंधककर्ता) पत्नीः दिनेश कुमार, खसरा संख्या 738/929, ग्राम- रबारका, तहसील-पताः हुडा स्टाफ, एच नंबर 2, सेक्टर 10, मकान नंबर 2 (156) तिजारा, जिला- अलवर (राजस्थान) में जन आवास परियोजना द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान के नियमों खाता संख्या AFH000300364829 और 404638607331 4263 और शर्तों के अनुसार, संख्या 2834, श्री दिनेश कुमार ऋण का प्रकार:- अफोर्डेबल होम लोन और क्रेडिट कार्ड सुविधा 🛮 और श्रीमती अंजू यादव के स्वामित्व में।

उपर्युक्त कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओं) (जो भी प्रयोज्य हो) को एतद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर

बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें असफल होने पर सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत कथित 60 दिनों की

योजना परियोजना 'जन आवास वाटिका' का विकास

. दिनेश कुमार (कर्जदार और बंधककर्ता) पुत्र जसवंत सिंह यादव, 🏿 अचल संपत्ति का संपूर्ण भाग, ब्लॉक/टावर छ2/ऑर्किड

पताः हुडा स्टाफ, मकान नंबर 2, सेक्टर 10, एच नंबर 2 (156) में तीसरी मंजिल पर फ्लैट संख्या 0-310, 550 वर्ग

के सामने, गुड़गांव-122001. इसके अलावाः ए-459, औद्योगिक फीट क्षेत्रफल। सुपर बिल्ट अप एरिया (तदनुरूप कार्पेट

क्षेत्र, चोपानकी, भिवाड़ी, अलवर-301019. इसके अलावाः पावटा, एरिया 395.57 वर्ग फीट)। मुख्यमंत्री जन आवास

समाप्त के पश्चात आगे की कार्यवाही की जायेगी।

यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत, यदि हमारे द्वारा किए गए सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ बकाया राशि सार्वजिनक नीलामी/बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय प्रस्तुत की जाती है तब बिक्री सम्पन्न नहीं की जाएगी और प्रतिभूत संपत्ति हमारे द्वारा बेची या हस्तांतरित नहीं की जाएगी, और उस प्रतिभूत संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए हमारे द्वारा कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

तिथि: 25.07.2025, स्थान: हरियाणा हस्ता./- (अधिकृत प्राधिकारी) यस बैंक लिमिटेड

हिसार मेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नियर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉलोनी दिल्ली रोड, हिसार - 125005 (हरियाणा) ई-मेलः vchugh@hisarmetal.com; फोनः (01662) 220067, 220367, 220738 फैक्सः (01662) 220265 सीआईएन: L74899HR1990PLC030937

35वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर और ई-मतदान की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नियर इंडिस्ट्रयल डेवलपमेंट कॉलोनी, दिल्ली रोड, हिसार (हरियाणा) में 35वीं एजीएम की सूचना में निर्घारित कार्यवाही निस्तारण हेत् आयोजित की जाएगी।

कंपनी के एजीएम की सूचना और वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं और एजीएम नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट के वेब लिंक वाला पत्र उन सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2024--25 के साथ यह पत्राचार एवं सूचना निम्नलिखित वेबसाइट www.hisarmetal.com और http://evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है । सदस्यों को रिमोट ई—मतदान से संबंधित जानकारी के साथ-साथ, यूजर आईडी एवं पासवर्ड भेज दिया गया है।

कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कंपनीज़ (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, के अनुसार, संशोधित तथा सेबी (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियगावली, 2015 के विनियग 44 कंपनी अपने सदस्यों को बैठक रथल के अलावा अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (रिमोट) द्वारा मताधिकार की सुविधा प्रदान करने में खुशी अनुभव कर रही है। कंपनी द्वारा रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करने हेतु नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को अधिकृत एजेंसी नियुक्त किया गया है। रिमोट ई-मतदान का विवरण निम्नानुसार है:

- रिमोट ई—मतदान प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः मंगलवार 16 सितंबर, 2025 (प्रातः 9:00 बजे)
- रिमोट ई-मतदान समाप्त होने की तिथि एवं समयः गुरुवार 18 सितंबर, 2025 (सार्य 5:00 बजे)
- रिमोट ई-मतदान की अनुमति 18 सितंबर, 2025 (साथ 5:00 बजे) के बाद नहीं दी जाएगी।
- 4. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि यानी 12 सितंबर, 2025 के अनुसार कंपनी के रजिस्टर / लाभार्थी स्वामियों के तौर पर दर्ज है वह ही रिमोट ई-मतदान सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ बैठक में मतदान करने के अधिकारी है।
- 5. वह व्यक्ति, जो बैठक की जानकारी भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि के अनुसार वह शेयरघारक है वह बैठक सूचना के अनुसार विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण करके यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट एवं एनएसढीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए अपना मौज़दा यूजर आईडी एवं पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- मतदान पत्र के माध्यम से गतदान की सुविधा एजीएम स्थल पर भी उपलब्ध रहेगी तथा रिमोट ई—मतदान से अपना मत न देने वाले एजीएम में उपस्थित सदस्य एजीएम में अपना मतदान दे सकेंगे।

रिमोट ई—मतदान से अपना मत दे चुके सदस्य बैठक में उपस्थित रह सकते हैं लेकिन बैठक में अपने मत का पुनः उपयोग नहीं

- रिमोट ई-मतदान से संबंधित किसी पूछतांछ हेतू, सदस्य / लामार्थी स्वामी निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं : श्री नरेंद्र देव, प्रबंधक नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेंड वर्ल्ड 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट गार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013, फोन नं. 022-48867000; ई-मेल: evoting@nsdl.com । सदस्यगण कंपनी सचिव को ई-मेल: vchugh@hisarmetal.com पर या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी लिख सकते हैं।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की घारा 91, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसरण में एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एजीएम और 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया लामांश, यदि कथित एजीएम में घोषित किया जाता है, के भुगतान के लिए योग्यता के निर्धारण हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 09 सितम्बर, 2025 से शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे। लामांश के प्रयोजन हेतु रिकॉर्ड तिथि 8 सितम्बर, 2025 है।

> कृते हिसार भेटल इंड्स्ट्रीज लिमिटेड (विशेष कुमार चुघ) कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

स्थान : हिसार (हरियाणा) दिनांकः 23 अगस्त, 2025

🔪 एचएफसीएल लिमिटेड

सीआईएब : L64200HP1987PLC007466

पंजीकृत कार्यालय : ८, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, घंबाघाट, सोलन — 173213 (हिमाचल प्रदेश)

वैबसाइट : www.hfcl.com; इंग्रेल : secretarial@hfcl.com; दूरभाष : 91-1792-230644; फैक्स लं.: 91-1792-231902 38वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम"), ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग,

रिकॉर्ड तिथि तथा बही समापन की सूचना

(यह एजीएम के संबंध में 19 अगस्त, 2025 को प्रकाशित हमारी पूर्व सूचना के अतिरिक्त है) एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि

 एचएफसीएल लिमिटेड ("कंपनी") की 38वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी) पर वीडियो कॉन्क्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, सामान्य तथा विशेष व्यवसाय को पूरा करने के लिए, जैसा कि 25 जुलाई, 2025 को एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्धारित है, आयोजित होने वाली है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), इसके तहत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सुवीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सुवीकरण विनियम') के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 तथा 09/2024 के साथ पढ़ें, दिनांक 08 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 05 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021, 05 मई 2022, 28 दिसंबर 2022, 25 सितंबर 2023 तथा 19 सितंबर 2024, क्रमशः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी ("एमसीए परिपत्र") तथा परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 16 जनवरी 2021. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई 2022. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी 2023, SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 दिनांक 07 अक्टूबर 2023, तथा SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CTR/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 भारतीय प्रतिभृति तथा विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ('सेबी परिपन्न') के अनुसार आयोजित होनी है।

2. संशोधित कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित अधिनियम की घारा 101 तथा 136 के प्रावधानों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के विवरण तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय को निर्धारित करने वाला नोटिस केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के मध्यम से भेजा गया है जिनकी ई—मेल आईडी डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आपटीए") के पास पंजीकृत हैं, जिनके नाम शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए कंपनी के सदस्यों / लाभकारी मालिकों के रिजस्टर में दिखाई देते हैं। इसके अलावा सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(वी) के संदर्भ में, कंपनी ने उन शेयरधारकों को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए वेब लिंक तथा क्यूआर कोड (सटीक पथ सहित) युक्त एक पत्र भी भेजा है, जिन्होंने ढिपॉजिटरी / ढिपॉजिटरी प्रतिभागियों / कंपनी / आरटीए के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं। वार्षिक आम बैठक की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट <u>www.nseindia.com</u> पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

 ई—मेल के माध्यम से एजीएम की सुचना भेजने का काम 21 अगस्त 2025 को पूरा हो गया है। इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम से रिमोट वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") तबा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के अनुसार, संशोधित तथा सेवी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 44 तथा सामान्य बैठको पर सचिवीय मानक ("एसएस-2") के अनुसार भौतिक रूप या डीमैंट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड **("एनएसडीएल")** द्वारा प्रदान की गई एजीएम के स्थान **("रिमोट ई-बोटिंग")** के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्वारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि

i) एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्य इलेक्ट्रॉनिक मध्यम से मतदान के मध्यम से किया जाएगा।

ii) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 (सुबर 9.00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी।

iii) रिमोट ई-वोटिंग रविवार, 14 सितंबर, 2025 (शाम 5.00 बजे आईएसटी) को समापा होगी तथा इस समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। iv) एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग तथा/या ई-वोटिंग द्वारा वोट देने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 8 सितंबर, 2025

है। सदस्य के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को कंपनी की इविवटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के चुकता मूल्य के अनुपात में होंगे। v) कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है तथा कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को शेयर

धारण करता है, वह evoting@nsdl.com पर या कंपनी को secretarial@hfcl.com पर या एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (युनिट : एबएफसीएल लिमिटेड) के आरटीए को admin@mcsregistrars.com पर एक अनुरोध भेजकर, अपने फोलियो नंबर / डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईबी का उल्लेख करके यूजर आईबी तथा पासवर्ज प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिग /ई-वोटिग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत है, तो सदस्य एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।

vi) सदस्यगण ध्यान दें कि:

क) एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी:

ख) एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर वोटिंग की सकिया भी एजीएम में उपलब्ध होगी. गो जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट का प्रयोग किया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम में फिर से अपना वोट

घ) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डियोंजिटरी द्वारा बनाए गए लागार्थी मालिकों के रजिस्टर में कट—ऑफ तिथि, यानी, सोमवार,

8 सिलंबर, 2025 तक दर्ज किया गया है, केवल वही एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार क) जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है. उसे इस नोटिस को केवल सुवना के उद्देश्य के लिए लेना चाहिए।

viii) रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया तथा निर्देश एजीएम के नोटिस तथा प्रत्येक शेयरधारक को भेजे गए ई-मेल में

viii) रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सुकिश से संबंधित किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर

'डाउनलोड' अनुभाग में उपलब्ध सदस्यों के लिए प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा सदस्यों के लिए रिमोट ई-वीटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 022-4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रश्नंवक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), तीसरा तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई, महाराष्ट्र- 400051 से निर्दिष्ट ई-मेल पते पर संपर्क कर सकते हैं : evoting@nsdl.com

ix) कंपनी के निर्देशक मंडल ने अंकित मृत्य रू. 17— प्रति इक्विटी शेयर पर 10: की दर से अंतिम लामांश, अर्थात रू. 0,107— (केंवल दस पैसे) की सिफारिश की है। यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अंतिम लामांश को मंजुरी दे दी जाती है, तो उसका मुगतान वार्षिक आम बैठक के 30 दिनों के मीतर किया जाएगा। इसके अलावा, कुपया आय कर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लाभांश पर स्रोत पर कर की कटीती के संबंध में शेयरधारकों को 19 जून, 2025 को भेज गए हमारे ई-मेल संचार का संदर्भ लें।

x) कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त विलीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को तय किया है, यदि एजीएम में अनुमोदित किया जाता है।

xi) श्री बलदेव सिंह कश्तवाल (एफसीएस-3616 तथा सीओपी नंबर 3169), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि निष्पक्ष तथा पारदर्शी तरीके से एजीएम के दौरान संपूर्ण रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा ई-वोटिंग की जांच की जा सके।

xii) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने तथा मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य अपनी तथा से भाग लेने तथा मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियक्त करने का हकदार है तथा प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चैंकि यह एजीएम, एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुसार, इस एजीएम के लिए सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तथा इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्घी तथा एजीएम का रूट मैप सूचना के साथ संलग्न नहीं है। तथापि, जो कॉर्पोरेट सदस्य जो अधिनियम की धारा 113 के अनुसार अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का इरादा रखते हैं, जैसा भी मामला हो, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए या एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से योट करने के लिए, उनसे अनुरोध है कि ये बोर्ड के प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जांचकर्ता को ई-मेल द्वारा scrutinizer@hfcl.com पर भेजें, जिसकी एक प्रतिलिपि एनएसबीएल को evoting@nsdl.com पर तथा कंपनी को secretarial@hfcl.com पर भेजी जाए।

xiii) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं तथा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पते/कंवाईसी विवरण पंजीकृत/अपबेट/पूरा नहीं किया है. वे विधिवत भरे तथा हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआए-1 (पैन, केवाईसी विवरण या उसमें बदलाव/अपबेशन के लिए फॉर्म) जो कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com पर उपलब्ध है, कंपनी के आरटीए को admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी के सचिवीय विमाग को secretarial@hfcl.com पर ई-मेल द्वारा भेजकर पंजीकरण/अपडेट/पूरा करवा सकते हैं। डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरचारक अपने ई-मेल पते / कंबाईसी विवरण को पंजीकृत / अपश्रेट / पूरा करने के लिए अपने विपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं / उन्हें लिख सकते हैं। इससे शेयरधारकों को अपने शेयर/अप्रदत्त लामांश को निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि प्राधिकरण/निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि खाले के डीमैट खाते में अंतरित करने से बचने में मदद मिलेगी।

संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ मतदान परिणाम, कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.com पर

दिनाँक : 22 अगस्त 2025

तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेंड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com पर बैठक की समाप्ति के 2 कार्य दिवसों के भीतर, अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप में अधिकृत व्यक्ति द्वारा मतदान परिणामों की घोषणा के बाद, रखे जाएंगे। अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, प्रस्ताव 38वीं वार्षिक आम बैठक की तिथि। अर्थात 15 सितंबर, 2025 को पारित माने जाएँगे। बही समापन

एतदद्वारा यह भी सुचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 के साथ पठित अधिनियम की धारा 91 के अनुसार,

कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर इस्तांतरण बहीखाते वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तथा लामांश के उदेश्य से मंगलवार 9 सितंबर 2025 से कृते एचएफसीएल लिमिटेड

रथान : नई दिल्ली

सोमवार 15 सितंबर 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

(मनोज बेद) अध्यक्ष तथा कंपनी सचिव

हस्ता./-

Chandigarh

₹.487,494.36/-

(रुपये चार लाख

सत्तासी हजार चार सौ

चौरानवे और छत्तीस

08-दिस.-2024

05-08-2025

epaper.jansatta.com